

(A) वैयक्तिक माहिती

अर्जदाराचे नाव (दोन शब्दांमध्ये जागा सोडा, उदाहरणार्थ M R R A M K U M A R S I N G H)

उपाधी (श्रीफिक्स)*

पहिले नाव*

मधले नाव

आडनाव*

रचनेचा कोड*

व्यक्ती

जात*

STSCOBCGEN

निवासी स्थिती*

निवासी

अनिवासी

आईचे मूळ नाव*

वडिलांचे नाव/पती/पत्नीचे नाव/संरक्षकाचे नाव

पहिले नाव*

मधले नाव

आडनाव*

(B) Current/ Communication Address

Flat No.* & Bldg Name*

Road No./Name

Landmark*

District/City*

State*

Staying Since*

MM

YY

Village/PO*

Country*

Pin Code*

Please mention a prominent landmark to ensure that the deliverables reach you

Contact details: For new customer contact details are mandatory

Mobile*

91

Tel.

Email ID

(Important Note: Details mentioned for 1st applicant will be used for all communication and alerts related to this account)

(B) वर्तमान / संचार पता

फ्लॅट संख्या* और बिल्डिंग का नाम*

सड़क संख्या/नाम

लैंडमार्क*

जिला/शहर*

राज्य*

निवास की अवधि*

MM

YY

गांव/डाकघर*

देश*

पिन कोड*

कृपया एक प्रमुख लैंडमार्क का उल्लेख करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि भेजी जाने वाली वस्तुएँ आप तक पहुंचें

संपर्क विवरण: नए ग्राहक के लिए संपर्क विवरण अनिवार्य हैं

मोबाइल*

91

दूरभाष

ईमेल आईडी

(महत्वपूर्ण नोट: इस खाते से संबंधित सभी संचार और अलर्ट के लिए पहले आवेदक के लिए उल्लिखित विवरण उपयोग किया जाएगा)

(B) सध्याचा / संवाद साधण्याचा पता

फ्लॅट क्रमांक* आणि इमारतीचे नाव*

रस्ता क्रमांक/रस्त्याचे नाव

सीमाचिन्ह*

जिल्हा/शहर*

राज्य*

इथपासून राहत आहे*

MM

YY

गाव/पी.ओ.*

देश*

पिन कोड*

कृपया एखादे प्रसिद्ध सीमाचिन्ह लिहा जेणेकरून प्रदेश गोष्ट (डिविडरेबल्स) आपल्यापर्यंत पोहोचविता येण्याची सुनिश्चिती करता येईल

संपर्काची माहिती : नवीन ग्राहकांसाठी संपर्काची माहिती अनिवार्य आहे

मोबाइल*

91

दूरध्वनी

ई-मेल आय.डी

(महत्वाची टीप: पहिल्या अर्जदारासाठी नमूद केलेली माहिती या खात्याशी संबंधित सर्व संवाद साधण्यासाठी आणि अलर्टसाठी वापरण्यात येईल)

(C) Permanent Address (Mandatory if current address is office address)

Flat No.* & Bldg Name*

Road No./Name

Landmark*

District/City*

State*

Staying Since*

MM

YY

Village/PO*

Country*

Pin Code*

Please tick in case permanent address is the same as Current/ Communication address

Please mention a prominent landmark to ensure that the deliverables reach you

(C) स्थायी पता (अनिवार्य है यदि वर्तमान पता कार्यालय का पता है)

फ्लॅट संख्या* और बिल्डिंग का नाम*

सड़क संख्या/ नाम

लैंडमार्क*

जिला/शहर*

राज्य*

निवास की अवधि*

MM

YY

गांव/डाकघर*

देश*

पिन कोड*

यदि स्थायी पता वर्तमान/संचार पते के समान है तो कृपया सही का निशान लगाएँ

कृपया एक प्रमुख लैंडमार्क का उल्लेख करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि भेजी जाने वाली वस्तुएँ आप तक पहुंचें

जर स्थायी पत्ता सध्याच्या / संवाद साधण्याच्या पत्त्यासारखा असेल तर कृपया टिक करा

[illegible]

Religion*		Nationality*		Mother Tongue*	
Customer Type (If Applicable)	☐ Blind	☐ Illiterate	☐ Pardanashin	☐ Differently Abled	☐ Others _____
Date of Birth*		Gender*		☐ Minor (Age proof document required)	Business Division* ☐ Retail ☐ Corporate
Pan No.		Form 60	☐ (If PAN not available fill form 60)		
Marital Status*	☐ Single	☐ Married	☐ Others _____	IT Status Code* ☐ Individual	☐ Sr. citizen (Age proof document required)
					☐ Super Sr. citizen (Age proof document required)

वर्ग*		राष्ट्रीयता*		मातृभाषा*	
ग्राहक का प्रकार (यदि लागू हो)	☐ दृष्टिबाधित ☐ अशिक्षित ☐ पर्दानशी ☐ दिव्यांग ☐ अन्य _____	व्यापार प्रभाग* ☐ खुदरा ☐ कॉर्पोरेट			
जन्म तिथि*		लिंग*		☐ अवयस्क (आयु प्रमाण दर्तावेज आवश्यक)	
पैन संख्या		फॉर्म 60	☐ (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म 60 भरें)		
वैवाहिक स्थिति*	☐ अविवाहित ☐ विवाहित ☐ अन्य _____	आईटी स्थिति कोड*	☐ व्यक्तिगत	☐ वरिष्ठ नागरिक (आयु प्रमाण दर्तावेज आवश्यक)	☐ सुपर वरिष्ठ नागरिक (आयु प्रमाण दर्तावेज आवश्यक)

वर्धन*		राष्ट्रीयत्व*		मातृभाषा*	
ग्राहकाचा प्रकार (लागू असल्यास)	अंध	निरक्षर	परदानशील	दिव्यांग	इतर
जन्म तारीख*	D D M M Y Y Y Y		लिंग*	M F T	अल्पवयीन (वयाच्या पुराव्याचे कागदपत्र सादर)
पॅन क्रमांक			फॉर्म 60	(पॅन न मिळाल्यास फॉर्म 60 भरावा)	
वैवाहिक स्थिती*	अविवाहित	विवाहित	इतर	आय.टी स्थितीचा कोड*	व्यक्ती
			ज्येष्ठ नागरिक (वयाच्या पुराव्याचे कागदपत्र सादर)		
			महा ज्येष्ठ नागरिक (वयाच्या पुराव्याचे कागदपत्र सादर)		

☐ Aadhar Letter/Card	☐ Voter's Identity Card	☐ Driving Licence	☐ Passport	☐ NREGA Card	☐ Other Officially Valid Documents.....
Document No.1:*					
If Passport then Expiry Date*			If Driving Licence then Expiry Date*		
Date of Issue* (in case of Passport / Driving Licence / Birth Certificate):			Place of Issue*		

आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट नरेगा कार्ड आधिकारिक रूप से मान्य अन्य दस्तावेज दस्तावेज संख्या 1: * दस्तावेज संख्या 2: * यदि पासपोर्ट तो उसकी समाप्ति तिथि* यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो समाप्ति तिथि* जारी करने की तारीख* जारी किए जाने का स्थान* (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/जन्म प्रमाण पत्र के मामले में):	Empty space for the second column
---	-----------------------------------

☐ आधार पत्र/कार्ड	☐ मतदार ओळखपत्र	☐ वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स)	☐ पासपोर्ट	☐ नरेगा कार्ड	☐ इतर अधिकृतपणे वैध कागदपत्रे.....
दस्तऐवज क्रमांक 1:-*					

 दस्तऐवज क्रमांक 2:-* | || पासपोर्ट असेल तर मुद्रित समाप्तीची तारीख आहे* | | | वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) असेल तर मुद्रित समाप्तीची तारीख आहे* | | |
| DDMMYYYY | | | DDMMYYYY | | |
| जारी करण्याची तारीख* (पासपोर्ट / वाहन चालविण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) / जन्म प्रमाणपत्राच्या बाबतीत): | | | जारी करण्याचे ठिकाण* | | |
[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

मौजूदा कार्ड लिंके: याहक अपने उस कार्ड संख्या का उल्लेख कर सकते हैं जिससे वे इस खाते को लिंक करना चाहते हैं।
(कृपया ध्यान दें कि यह सुविधा खाता खोलने के निर्देशों के लिए उपलब्ध है: एकल, दोनों में से कोई या उत्तरजीवी)
कार्ड संख्या:

(H) डेबिट कार्ड*

[Y][N]	[]	नवीन कॉर्ड (कृपया लक्षा असू द्या की ही सुविधा उघडण्याच्या सूचनांसाठी उपलब्ध आहे. एकेरी, दोन्हीपैकी एक किंवा मागे जगणारा (सर्व्हाइवर) फक्त.)
जर होय असेल, तर कृपया कोणतेही एक निवडा:	☐ रुपे क्लासिक ☐ मास्टरकार्ड गोल्ड	☐ रुपे प्लॅटिनम ☐ मास्टरकार्ड प्लॅटिनम ☐ इतर _____

डेबिट कार्डवर दाखविणारे नाव

शर्ती:

- नामांकन केलेली व्यक्ती खात्यातील नामांकन केलेली व्यक्तीयच असेल, विभा संरक्षण फक्त डेबिट कार्डसाठी लागू असेल.
- जाग्रेक्षित नाव हे जास्तीत जास्त 21 अक्षरांमध्ये असावे.
(कृपया लक्षा असू द्या की ही सुविधा उघडण्याच्या सूचनांसाठी उपलब्ध आहे. एकेरी, दोन्हीपैकी एक किंवा मागे जगणारा (सर्व्हाइवर) फक्त.)

[illegible]

(I) Customer Profile Details:

Occupation* ☐ Salaried ☐ Self-Employed ☐ Retired ☐ Student ☐ Housewife ☐ Politician ☐ Others_____

Self Employed since (If applicable) Years Months

Nature of Business (If applicable) ☐ Manufacturing ☐ Service Provider ☐ Agriculture ☐ Stock Broker ☐ Real Estate ☐ Trader ☐ Gems & Jewellery ☐ Others_____

If salaried, employed with ☐ Pvt. Ltd. ☐ Public Ltd. ☐ Pub. Sector ☐ Partnership ☐ Proprietorship ☐ Government ☐ MNC ☐ Others_____

Self employed professional ☐ Doctor ☐ CA/CS ☐ Lawyer ☐ Architect ☐ IT Consultant ☐ Others_____

Education* ☐ Non Graduate ☐ Graduate ☐ Post Graduate ☐ Others _____

(I) **ग्राहक प्रोफाइल विवरण:**

व्यवसाय* ☐ वेतनभोगी ☐ स्व - नियोजित ☐ सेवानिवृत्त ☐ विद्यार्थी ☐ गृहिणी ☐ राजनीतिज्ञ ☐ अन्य _____

स्व-नियोजित होने की अवधि (यदि लागू हो) ☐ ☐ वर्ष ☐ ☐ महीने

व्यापार की प्रकृति (यदि लागू हो) ☐ विनिर्माण ☐ सेवा प्रदाता ☐ कृषि ☐ शेयर दलाल ☐ रियल एस्टेट ☐ व्यापारी ☐ रत्न एवं आभूषण ☐ अन्य _____

यदि वेतनभोगी हैं, तो किसके साथ नियोजित हैं? ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ पब्लिक लिमिटेड ☐ सार्वजनिक क्षेत्रक ☐ साझेदारी ☐ स्वामित्व ☐ सरकार ☐ बहुराष्ट्रीय कम्पनी ☐ अन्य _____

स्व-नियोजित पेशेवर ☐ डाक्टर ☐ सीए/सीएस ☐ वकील ☐ वास्तुकार ☐ आईटी सलाहकार ☐ अन्य _____

शिक्षा* ☐ नॉन ग्रेजुएट ☐ ग्रेजुएट ☐ पोस्ट ग्रेजुएट ☐ अन्य _____

(I) ग्राहकाच्या प्रोफाइलची माहिती :

उद्योग* ☐ पगारदार ☐ स्वयं-रोजगार ☐ सेवानिवृत्त ☐ विद्यार्थी ☐ गृहिणी ☐ राजनीतिज्ञ ☐ इतर_____

इथपासून स्वयं-रोजगार आहे
(लागू असल्यास) ☐ वर्षे ☐ महिने

व्यवसायाचे स्वरूप
(लागू असल्यास) ☐ वस्तूनिर्माण (मॅन्युफॅक्चरिंग) ☐ सेवा पुरवठादार ☐ कृषि ☐ स्टॉक ब्रोकर ☐ रियल इस्टेट ☐ व्यापारी ☐ रत्ने व दागिने ☐ इतर_____

पगारदार असल्यास, येथे नोकरी करत आहे ☐ प्रायव्हेट ☐ पब्लिक लिमिटेड ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ भागीदारी ☐ मालकी हक्काची आहे ☐ सरकार ☐ एम.एन.सी ☐ इतर_____

स्वयं-रोजगार व्यावसायिक ☐ डॉक्टर ☐ सी.ए/सी.एस ☐ वकील ☐ वास्तुविशारद ☐ आय.टी सल्लागार ☐ इतर_____

शिक्षण* ☐ पदवीधर नाही ☐ पदवीधर ☐ पदव्युत्तर ☐ इतर _____

(J) PGK Acknowledgment (If applicable):
I/we confirm having received the PGK in an untampered/sealed condition and mentioned deliverable have been received by me: Welcome Letter ☐ Cheque book ☐ Debit Card ☐ MITC ☐

(J) पीजीके पावती (यदि लागू हो): हम पष्टि करते हैं कि पीजीके को बिना छेड़छाड़ /सीलबंद स्थिति में प्राप्त किया गया है और उल्लेख की गई भेजी जाने वाली वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई हैं: स्वागत पत्र चेक बुक डेबिट कार्ड एमआईटीसी

(J) पी.जी.के.ची पावती (लागू असल्यास):
मी / आम्ही याद्वारे पुष्टी करतो की, छेडछाड न झालेल्या / सीलबंद स्थितीत पी.जी.के.एन मिळाले आहे आणि नमूद केलेले प्रदेश (डिलिव्हरबल) यांनी घेतले आहे: स्वागत पत्र ☐ चेक बुक ☐ डेबिट कार्ड ☐ एम.आय.टी.सी ☐

(K) Existing Banking Relationships* (Mandatory for Current Accounts only)

I/we declare that I/we do enjoy credit facilities with other Bank

Yes

No

(If yes)

Details of Borrowal Accounts

Bank and Branch	Facility	Amount
Bank and Branch	Facility	Amount

(K) मौजूदा बैंकिंग संबंध* (केवल चालू खातों के लिए अनिवार्य)

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम अन्य बैंकों से ऋण सुविधाएं ले रहे हैं

हाँ

नहीं

(यदि हाँ)

उधार खातों का विवरण

बैंक और शाखा	सुविधा	राशि
बैंक और शाखा	सुविधा	राशि

(K)विद्यमान बैंकिंग संबंध* (केवल चालू खात्यांसाठी अनिवार्य आहे)

मी / आम्ही जाहीर करतो की मला / आम्हाला इतर बँकांकडून खालील 'क्रेडिट सुविधा' मिळतात

हाँ

नहीं

(जर होय असेल तर)

उधारी खात्यांची माहिती

बँक आणि शाखा	सुविधा	रक्कम
बँक आणि शाखा	सुविधा	रक्कम

(L) Source of Income*

☐ Salary

☐ Agriculture

☐ Business Income

☐ Investment Income

☐ Others

Gross annual income (₹)*

☐ <50,000

☐ 50,000 - 1 Lac

☐ >1 - 3 Lac

☐ > 3 - 5 Lac

☐ > 5 - 7.5 Lac

☐ > 7.5 - 10 Lac

☐ > 10 Lac

Residence Type*

☐ Owned

☐ Rented/Leased

☐ Ancestral/Family

☐ Company provided

Other Assets

☐ Two Wheeler

☐ Car

(L) आय का स्रोत*

☐ वेतन

☐ कृषि

☐ व्यवसाय आय

☐ निवेश आय

☐ अन्य

सकल वार्षिक आय (₹)*

☐ <50,000

☐ 50,000 - 1 लाख

☐ >1 - 3 लाख

☐ > 3 - 5 लाख

☐ > 5 - 7.5 लाख

☐ > 7.5 - 10 लाख

☐ > 10 लाख

निवास का प्रकार*

☐ स्वामित्व

☐ किराए पर/पट्टे पर

☐ पैतृक/परिवार

☐ कंपनी द्वारा प्रदान किया गया

अन्य परिसंपत्तियां

☐ दो पहिया वाहन

☐ कार

(L) उत्पन्नाचे स्रोत*

☐ पगार

☐ कृषि

☐ व्यवसायातून उत्पन्न

☐ गुंतवणुकीतून उत्पन्न

☐ इतर

एकूण वार्षिक उत्पन्न (₹)*

☐ <50,000

☐ 50,000 - 1 लाख

☐ >1 - 3 लाख

☐ > 3 - 5 लाख

☐ > 5 - 7.5 लाख

☐ > 7.5 - 10 लाख

☐ > 10 लाख

निवासाचा प्रकार*

☐ मालकीचे आहे

☐ भाड्याचे आहे / भाडेपट्ट्याने दिलेले आहे

☐ वडिलोपार्जित/कुटुंबाचे आहे

☐ कंपनीने दिलेले आहे

इतर मालमत्ता

☐ दुचाकी (टू व्हीलर)

☐ गाडी

(M) Initial Payment Funding*

Mode of Payment*

☐ Cash

☐ Cheque

☐ Direct Debit from own USFB A/C

☐ NEFT/RTGS (from own A/C with other bank)

(To open account with cash, customer must deposit the cash in person in A/c opening branch only)

Amount (₹)*

(In words)

Cheque No.

Cheque Date

D

D

M

M

Y

Y

Drawn on

D

D

M

M

Y

Y

Bank Name

Branch

Account No. & Name*

Account No.

Account Name

*USFB a/c in case of direct transfer/

*other own bank a/c in case of NEFT/RTGS

RTGS/NEFT UTR No.*

Date of Transaction*

in case of Cash/NEFT/RTGS/Direct debit

D

D

M

M

Y

Y

Applicant(s) Signature only for Direct Debit from own A/c

(M) प्रारंभिक भुगतान वित्त पोषण*

भुगतान का तरीका*

☐ नकद

☐ चेक

☐ अपने यूएसएफबी खाते से प्रत्यक्ष डेबिट

☐ एनईएफटी/आरटीजीएस (अन्य बैंक में धारित अपने खाते से)

नकदी के साथ खाता खोलने के लिए, ग्राहक को केवल खाता खोलने वाली शाखा में व्यक्तिगत रूप से नकद जमा करना होगा)

राशि (₹)*

(शब्दों में)

चेक संख्या

चेक की तारीख

D

D

M

M

Y

Y

इस पर आहरित

D

D

M

M

Y

Y

बैंक का नाम

शाखा

खाता संख्या और नाम*

खाता संख्या

खाता नाम

*प्रत्यक्ष अंतरण के मामले में यूएसएफबी खाता

*एनईएफटी/आरटीजीएस के मामले में स्वयं के अन्य बैंक खाते

आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर संख्या*

लेन-देन की तारीख*

D

D

M

M

Y

Y

केवल अपने स्वयं के खाते से प्रत्यक्ष डेबिट के लिए आवेदक (कौं) के/का हस्ताक्षर

(M) प्रारंभिक देय भरण्यासाठी निधी*

देय भरण्याची पद्धत*

☐ रोख

☐ धनादेश

☐ स्वतःच्या यू.एस.एफ.बी खात्यातून थेट डेबिट

☐ एन.इ.एफ.टी / आर.टी.जी.एस (इतर बँकेतील स्वतःच्या खात्यातून)

(रोख रक्कम भरून खाते उघडण्यासाठी, ग्राहकाने फक्त खाते उघडले गेलेल्या शाखेत स्वतः जाऊन रोख रक्कम जमा केली पाहिजे)

रक्कम (₹)*

(शब्दांत)

धनादेश क्रमांक

धनादेश दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

यावर काढण्यात आले आहे

D

D

M

M

Y

Y

बँकेचे नाव

शाखा

खाते क्रमांक व नाव*

खाते क्रमांक

खात्याचे नाव

*थेट स्थानांतरणाच्या बाबतीत यू.एस.एफ.बी खाते /

*एन.इ.एफ.टी/आर.टी.जी.एस च्या बाबतीत स्वतःचे इतर बँकेचे खाते

आर.टी.जी.एस/एन.इ.एफ.टी यू.टी.आर क्रमांक.*

व्यवहाराची तारीख*

D

D

M

M

Y

Y

रोख/एन.इ.एफ.टी/आर.टी.जी.एस/थेट डेबिटच्या बाबतीत

अर्जदारा(रो)ची स्वाक्षरी फक्त स्वतःच्या खात्यातून थेट डेबिटसाठी

(N) FATCA - CRS* Tax residence declaration (Tick one as applicable to you)

☐ I am tax resident of India and not resident of any other country Or ☐ I am tax resident of the country/ies mentioned in the table below

Please indicate the country/ies in which the entity is a resident for tax purposes and the associated Tax ID Number below:

City of Birth* Country of Birth* Address Type for Tax Purpose* Residential Business Registered Office

I have understood the information of this form and hereby confirm that the information provided by me on this form is true, correct & complete and hereby accept the same.

Country*	Tax Identification Number%	Identification Type (TIN or Other, Please Specify)%	Address for Tax Purpose*		
			☐ Communication Address	☐ Permanent Address	☐ Please note the address below
			Landmark		
			Pin*	State*	Country*

#To also include USA, where the individual is a citizen/green card holder of USA % in case Tax Identification Number is not available, Kindly provide functional equivalent* FATCA-CRS Certification. I have understood the information requirements of this form (read along with FATCA/CRS instructions and terms & conditions) and hereby confirm that the information provided by me/us on this form is true, correct and complete and hereby accept the same.

Signature of Applicant

(N) एफएटीसीए - सीआरएस* कर निवास घोषणा (आप पर लागू होने वाले एक पर सही का निशान लगाएँ)

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ या ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश का कर निवासी हूँ
कृपया उस देश/देशों को इंगित करें जिसमें इकाई कर उद्देश्यों के लिए एक रेजिडेंट है और नीचे संबद्ध टैक्स आईडी संख्या को इंगित करें:

जन्म का शहर* जन्म का देश* कर उद्देश्य के लिए पते का प्रकार* आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय

मैंने इस फॉर्म की जानकारी को समझ लिया है और एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म पर मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और एतद्वारा इसे स्वीकार करता हूँ।

देश *	कर पहचान संख्या%	पहचान प्रकार (टिन या अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)%	कर उद्देश्य के लिए पता		
			☐ संचार पता	☐ स्थायी पता	☐ कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें
			लैंडमार्क		
			पिन*	राज्य*	देश*

संयुक्त राज्य अमरीका को भी शामिल करने के लिए, जहां व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका % का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है, यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष एफएटीसीए-सीआरएस प्रमाणन प्रदान करें। मैंने इस फॉर्म की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को समझ लिया है (एफएटीसीए/सीआरएस निर्देशों और नियमों एवं शर्तों के साथ पढ़ें) और इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म पर मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और इसके द्वारा इसे स्वीकार करता हूँ / करते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

(N) फाटका - सी.आर.एस* कर निवासाची घोषणा (आपल्याला लागू असेल त्यावर टिक करा)

☐ मी भारताचा कर रहिवासी आहे आणि इतर कोणत्याही देशाचा रहिवासी नाही किंवा ☐ मी खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या देशाचा / देशांचा कर रहिवासी आहे
कृपया कराच्या उद्देशाने व्यक्ती ज्या देशात रहिवासी आहे त्या देशाचा (देशांचा) आणि सहयोगी कर आय.डी क्रमांक खाली दर्शवा :

जन्माला आलात ते शहर* जन्माला आलात तो देश* कर उद्देशासाठी पत्त्याचा प्रकार* निवासी व्यवसाय नोंदविलेले कार्यालय

मी या फॉर्मची माहिती समजून घेतली आहे आणि या फॉर्मवर मी दिलेली माहिती खरी, योग्य आणि पूर्ण आहे याची पुष्टी करून ती स्वीकारत आहे.

देश*	कर ओळख क्रमांक%	ओळखचा प्रकार (टी.आय.एन (टिन) किंवा इतर, कृपया उल्लेख करा)%	कर उद्देश्य के लिए पता		
			☐ संवाद साधण्यासाठी पता	☐ स्थायी पता	☐ कृपया खालील पता नोंद करून घ्या
			सीमाचिन्ह		
			पिन*	राज्य*	देश*

यू.एस.ए. सुद्धा समाविष्ट करण्यासाठी, जिथे व्यक्ती यू.एस.ए. ची नागरिक / ग्रीन कार्ड धारक आहे जर कर ओळख क्रमांक उपलब्ध नसेल तर, कृपया कार्यात्मक समतुल्य प्रदान करा\$ फाटका-सी.आर.एस प्रमाणीकरण. मी या फॉर्मच्या माहितीच्या गरजा समजून घेतल्या आहेत (फाटका / सी.आर.एस च्या सूचना आणि अटी व शर्तीसह वाचल्या आहेत) आणि याद्वारे पुष्टी करत आहे की या फॉर्मवर मी / आम्ही प्रदान केलेली माहिती खरी, योग्य आणि पूर्ण आहे आणि याद्वारे ती स्वीकारत आहे.

अर्जदाराची स्वाक्षरी

(O) Electronic Banking Facility: Internet / Mobile Banking Alerts (SMS & Email) Email Statement Yes No (In case email statement is opted, physical statement will not be sent)

(Facilities subject to charges, please refer schedule of charges)

(O) इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग सुविधा: इंटरनेट / मोबाइल बँकिंग अलर्ट (एसएमएस और ईमेल) ईमेल विवरण हाँ नहीं (यदि ईमेल स्टेटमेंट का विकल्प चुना जाता है, तो कागजी विवरण नहीं भेजा जाएगा)

(प्रसारित की जाने वाली सुविधाएं, कृपया प्रभारी की अनुसूची देखें)

(O) इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग सुविधा : इंटरनेट / मोबाइल बँकिंग अलर्ट्स (एस.एम.एस आणि ईमेल) ईमेल स्टेटमेंट होय नाही (ई-मेल स्टेटमेंट निवडल्यास प्रत्यक्ष स्टेटमेंट पाठविले जाणार नाही)

(सुविधा शुल्काच्या अधीन आहेत, कृपया शुल्काची अनुसूची पहा)

(P) Operating Instruction*

☐ Single ☐ Either or Survivor ☐ Jointly (Debit Card not issued) ☐ Former or Survivor ☐ Any one or Survivor ☐ Minor operated by Guardian ☐ Minor Self

(For Minor Account Debit Card is not issued if minor is below 10 years)

(P) परिचालन निर्देश*

☐ अतिवाहित ☐ दोनों में से कोई या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रूप से (डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया) ☐ पूर्व या उत्तरजीवी ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ अभिभावक द्वारा संचालित अवयस्क ☐ अवयस्क स्वयं

(अवयस्क खते के लिए, यदि अवयस्क की आयु 10 वर्ष से कम है तो डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है)

(P) कामकाजाच्या सूचना*

☐ एकट्याने ☐ दोन्हीपैकी एक किंवा मागे जगणारा (सर्व्हाइवर) फक्त ☐ संयुक्तपणे (डेबिट कार्ड जारी केलेले नाही) ☐ आधीचा किंवा मागे जगणारा (सर्व्हाइवर) ☐ कोणीही किंवा मागे जगणारा (सर्व्हाइवर) ☐ अल्पवयीन ज्याला संरक्षकाद्वारे चालविले जात आहे ☐ अल्पवयीन स्वयं

(अल्पवयीन खात्यासाठी अल्पवयीन 10 वर्षांखालील असल्यास डेबिट कार्ड जारी केले जात नाही)

(Q) Minor Declaration (If applicable) Guardian Type : Father Mother Court Appointed

PREFIX*

Full Name of Guardian

I hereby declare that the date of birth of the minor who is my is / and I am his/her natural and lawful guardian/ guardian appointed by court order, dated (Copy enclosed).

I shall represent the said minor in all future transactions of any description in the above account until the said minor attains majority. I indemnify the Bank against the claim of the above minor for any withdrawal/ transactions made by me in his/her account.

Signature of Guardian

(S) नामांकन (डीए 1)*

हां, मैं / हम नामांकित करना चाहते हैं (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार)

नहीं, मुझे /हमें नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में समझाया गया है। लेकिन , मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मैं खाते के लिए नामांकन नहीं करना चाहता हूं।

बैंक जमाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के तहत नामांकन।

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

यह नामांकन बचत/चालू और सावधि जमा के लिए लागू होगा।

नामिती का नाम

कृपया सही का निशान लगाएँ कि क्या नामिती का पता आवेदक के पत्राचार पते के समान है

फ्लैट संख्या* और बिल्डिंग का नाम*

सड़क संख्या/नाम

लैंडमार्क*

जिला/शहर*

राज्य*

दूरभाष

नामिती के जन्म की तारीख (अवयस्क के मामले में अनिवार्य)

चूंकि नामिती इस तारीख को अवयस्क है, इसलिए मैं नियुक्त करता हूं, नाम

पता

नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरे अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामिती की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए

गांव/डाकघर*

देश*

पिन कोड*

जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो*

अवयस्क के साथ संबंध

आयु

पहले आवेदक के हस्ताक्षर

दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर

तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर

चौथे आवेदक के हस्ताक्षर

गवाहों का व्यक्तिगत विवरण (अंगूठे का निशान 2 गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

गवाह-1 का नाम

पता

गवाह-2 का नाम

पता

गवाह-1 के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

गवाह-2 के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

(S) नामांकन (डी.ए1)*

होय, मला / आम्हाला नामांकन करायचे आहे (खालील माहितीनुसार)

नाही, मला/ आम्हाला नामांकन सुविधेच्या फायद्यांबद्दल समजावून सांगण्यात आले आहे. तथापि, मला आपल्याला असे सांगायचे आहे की मला खात्यासाठी नामांकन करायचे नाही.

बैंक ठेवीच्या संदर्भित बैंकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 45 झेडए आणि बैंकिंग कंपन्यांचे (नामांकन) नियम 1985 च्या नियम 2(1) अन्वये नामांकन.

मी/आम्ही खालील व्यक्तीचे नामांकन देत आहे/आहोत ज्याला माझ्या / आमच्या/ अल्पवयीन व्यक्तीचे निधन झाल्यास उघडलेल्या खात्याची / मुदत ठेवीची रक्कम उत्तराधिकार प्राप्त झाल्यास बँक लिमिटेड कडून खाते उघडले गेलेल्या शिर्षकद्वारे परत केली जाऊ शकते.

हे नामांकन बचत / चालू आणि मुदत ठेवीसाठी लागू असेल.

नामांकन केलेल्या व्यक्तीचे नाव

नामांकन केलेल्या व्यक्तीचा पता अर्जदाराच्या भेलिंग पत्त्यासारखा असेल तर कृपया टिक करा

फ्लॅट क्रमांक* आणि इमारतीचे नाव*

रस्ता क्रमांक/रस्त्याचे नाव

सीमाचिन्ह*

जिल्हा/शहर*

राज्य*

दूरध्वनी

नामांकन केलेल्या व्यक्तीची जन्म तारीख (अल्पवयीन असल्यास अनिवार्य आहे)

या तारखेला नामांकन केलेली व्यक्ती अल्पवयीन असल्याने मी याची नेमणूक करत आहे, नाव

पता

नामांकन केलेल्या व्यक्तीच्या अल्पवयीन काळात माझ्या अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाल्यास नामांकन केलेल्या व्यक्तीच्या वतीने खात्यात जमा रक्कम मिळावी म्हणून

गाव/पी.ओ*

देश*

पिन कोड*

ठेवीदाराशी संबंध*, काही असल्यास*

अल्पवयीन मुलाशी संबंध

ज्याचे वय

पहिल्या अर्जदाराची स्वाक्षरी

दुसऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी

तिसऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी

चौथ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी

साक्षीदाराची वैयक्तिक माहिती (अंगठ्याचा ठसा 2 साक्षीदारांनी प्रमाणित करावा)

साक्षीदार 1 चे नाव

पता

साक्षीदार 2 चे नाव

पता

साक्षीदार 1 ची स्वाक्षरी

ठिकाण

तारीख

साक्षीदार 2 ची स्वाक्षरी

ठिकाण

तारीख

(T) Aadhaar Consent Form (Non-eKYC Authentication)

I hereby submit voluntarily at my own discretion, the physical copy of Aadhaar card/physical e-Aadhaar / masked Aadhaar /offline electronic Aadhaar xml as issued by UIDAI (Aadhaar), to Utkarsh Small Finance Bank Ltd ("Bank") for the purpose of establishing my identity / address proof and voluntarily give my consent to open account / process instructions for the said purpose with Utkarsh Small Finance Bank Ltd in my name/s individual capacity/ies using my Aadhaar or as an authorized signatory/ies in non-individual accounts.

I hereby voluntarily give my consent to the Bank for verification of my Aadhaar to establish its genuineness through Quick Response (QR) code embedded in the Aadhaar card or through such other acceptable manner as per UIDAI or under any Act or law from time to time.

The consent and purpose of collecting Aadhaar has been explained to me in local language. The Bank has informed me that my Aadhaar submitted to the Bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.

The Bank has informed me that my Aadhaar will be stored along with my account details within the Bank.

I hereby declare that all the information voluntarily furnished by me is true, correct and complete and will not hold Utkarsh Small Finance Bank Ltd or any of its officials responsible in case of any incorrect information provided by me.

में यूआईडीएआई (आधार) द्वारा जारी आधार कार्ड की भौतिक प्रति/ भौतिक ई-आधार/ मास्कड आधार/ ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक आधार एक्सएमएल, को अपनी पहचान / पते का प्रमाण स्थापित करने के उद्देश्य से उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड ("बैंक") को स्वेच्छा से प्रस्तुत करता हूँ और मेरे आधार का उपयोग करके मेरे नाम पर/ व्यक्तिगत क्षमता में या गैर-व्यक्तिगत खातों में एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड के साथ उक्त उद्देश्य के लिए खाता खोलने/निर्देशों को संसाधित करने हेतु स्वेच्छा से अपनी सहमति देता हूँ।

मैं पतद्वारा आधार कार्ड में एम्बेडेड त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से या यूआईडीएआई के अनुसार या समय-समय पर जारी किसी भी अधिनियम या कानून के तहत ऐसे अन्य स्वीकार्य तरीके से इसकी वास्तविकता स्थापित करने के लिए अपने आधार के सत्यापन हेतु बैंक को स्वेच्छा से अपनी सहमति देता हूँ।

आधार एकर करने की सहमति और उद्देश्य मुझे स्थानीय भाषा में समझाया गया है। बैंक ने मुझे सूचित किया है कि इसके साथ बैंक को प्रस्तुत किए गए मेरे आधार का उपयोग ऊपर उल्लिखित उद्देश्य या कानून की आवश्यकताओं के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

बैंक ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार बैंक के भीतर मेरे खाते के विवरण के साथ संयोजित किया जाएगा।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा स्वेच्छा से दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और मेरे द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के मामले में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड या उसके किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

मी माझ्या मर्जीने उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड ("बँक") ला यू.आय.डी.ए.आय (आधार) ने जारी केलेल्या आधार कार्ड / प्रत्यक्ष इ-आधार / तपवलेला (मास्क केलेला) आधार / ऑफलाईन इलेक्ट्रॉनिक आधार एक्स.एम.एल यांची प्रत्यक्ष प्रत, माझी ओळख / पत्त्याचा पुरावा स्थापित करण्याच्या उद्देशाने सादर करत आहे आणि माझ्या नावे माझे आधार वापरून किंवा गैर-व्यक्ती खात्यामध्ये अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता/कर्त म्हणून उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेडमध्ये माझ्या नावाने खाते उघडण्याच्या / प्रक्रिया सूचना देण्याच्या उद्देशासाठी स्वेच्छेने संमती देत आहे.

आधार कार्डमध्ये एम्बेड केलेल्या निव्वक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोडद्वारे किंवा यू.आय.डी.ए.आय नुसार किंवा कोणत्याही अधिनियम किंवा कायद्यानुसार वेळोवेळी अशा इतर स्वीकार्य मार्गाने माझ्या आधारची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी मी स्वेच्छेने बँकेला माझ्या आधारच्या पडताळणीसाठी संमती देत आहे.

आधार गोळा करण्याची संमती आणि हेतू मला स्थानिक भाषेत समजावून सांगितला आहे. बँकेने मला कळविलेले आहे की येथे बँकेकडे सादर केलेले माझे आधार वर नमूद केल्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी नाही किंवा कायद्याच्या आवश्यकतेनुसार वापरले जाईल.

बँकेने मला कळविलेले आहे की माझे आधार माझ्या खात्याच्या माहितीसह बँकेत साठवून ठेवले जाणार आहे.

मी स्वेच्छेने दिलेली सर्व माहिती खरी, योग्य आणि पूर्ण आहे आणि मी दिलेली कोणतीही चुकीची माहिती दिल्यास उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड ला किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणार नाही.

Product Code I/we have understood the detailed charge structure of the mentioned product as explained to me by the bank staff.
I/we have been informed that the same is also available on the bank's website www.utkarsh.bank.

उत्पाद कोड मैं/हम उल्लिखित उत्पाद की विस्तृत प्रभार संरचना, जैसा कि मुझे बैंक कर्मचारियों द्वारा समझाया गया है, को समझ गए हैं।
हमें सूचित किया गया है कि यह बैंक की वेबसाइट www.utkarshbank पर भी उपलब्ध है।

उत्पादनाचा कोड मी/आम्ही बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मला/आम्हाला समजावून सांगितल्याप्रमाणे नमूद केलेल्या उत्पादनाची तपशीलवार शुल्क रचना समजून घेतलेली आहे.
बँकेच्या www.utkarsh.bank या वेबसाइट वर सुद्धा ती उपलब्ध असल्याची माहिती मला/आम्हाला देण्यात आली आहे.

(To be submitted by the applicant wanting to furnish current address which is different from the Aadhaar address as per the identity information available in the Central Identities Data Repository (CIDR))

I request you to take on record my Current Address as follows, which is at variance with the address available in the CIDR for my Aadhaar Number ending with ____ (last 4 digits).

Current address			
Post/Vill./City		PIN	
		State	
Aadhaar Address			
Post/Vill./City		PIN	
		State	

I also confirm that in the event of change in address due to relocation or any other reason, I note to intimate the new address to the Bank immediately.

(ऐसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो ऐसा वर्तमान पता प्रस्तुत करना चाहता है जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार आधार पते से अलग है।
 मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे वर्तमान पते को निम्नानुसार रिकॉर्ड में लें, जो _____ (अंतिम 4 अंक) के साथ समाप्त होने वाली मेरी आधार संख्या के लिए सीआईडीआर में उपलब्ध पते से भिन्न है।

वर्तमान पता			
डाकघर/गांव/शहर	पिन		राज्य
आधार का पता			
डाकघर/गांव/शहर	पिन		राज्य

मैं इस बात की भी पुष्टि करता हूँ कि स्थानांतरण या किसी अन्य कारण से पते में परिवर्तन की स्थिति में, मैं बैंक को नए पते की तुरंत सूचना देने का ध्यान रखूंगा।

(सध्याचा पत्ता सेंट्रल आयडेंटिटी डेटा रिपॉझिटरी (सी.आय.डीआर) मध्ये उपलब्ध असलेल्या ओळखीच्या माहितीनुसार आधारच्या पत्त्यापेक्षा भिन्न आहे आणि हा ज्याला सादर करायचा आहे अशा अर्जदाराने सादर केले पाहिजे.)

मी आपणास विनंती करतो की खालीलप्रमाणे माझ्या सध्याच्या पत्त्याची नोंद करावी कारण हा _____ (शेवटचे 4 अंक) सह संपणाऱ्या माझ्या आधार क्रमांकासाठी सी.आय.डीआर मध्ये उपलब्ध पत्त्यापेक्षा भिन्न आहे.

सध्याचा पत्ता

ठिकाण/गाव/शहर पिन राज्य

आधारावरील पत्ता

ठिकाण/गाव/शहर पिन राज्य

मी अशी पुष्टी करतो की दुसरीकडे राहायला गेल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे पत्ता बदलल्यास, नवीन पत्ता ताबडतोब बँकेला कळवण्याची मी नोंद घेतलेली आहे.

Label Code Staff Employee Id

Letter from Employer verifying identity OR ID card issued by Employer Signature _____

Authorized Signatory with Company Seal

लेबल कोड

स्टाफ कर्मचारी आईडी

पहचान सत्यापित करने वाले नियोक्ता का पत्र

 या नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड

हस्ताक्षर _____
 कंपनी सील के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

लेबल कोड

कर्मचारी वर्गाचेचा
कर्मचारी आय.डी

ओळख पडताळणारे नियोक्त्याचे पत्र ☐ Y ☐ N किंवा नियोक्त्याने जारी केलेले आय.डी कार्ड ☐ Y ☐ N स्वाक्षरी _____

कंपनी सीलसह अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

(In this context, "I", "my" and "me" refers to all holders of the account) have read and understood the below T&C and understand that any changes to the T&C will be available on the website www.utkarsh.bank. Account opening/service provision: All services, including opening of the account are subject to verification of information/documents provided by me. In the event this account is not opened, initial funding amount will be refunded to me in the form of a DD only. Services: All services will be provided by Utkarsh Small Finance Bank subject to force majeure circumstances. The complete list of services available to me will be available on www.utkarsh.bank. Passbook: The discretion lies with the Bank regarding providing pass books to account holders. Cheque Book: Satisfactory conduct of the account entails maintaining sufficient balance to honor cheques issued to third parties. If there are high incidences (i.e. more than 3 cheque returns for want of funds) to the contrary, the Bank reserves the right to close the account under intimation to the customer. Any special instructions, both financial and non-financial in nature, like standing instructions, stop payment instructions, issuance of cheque books etc must be communicated in writing. Otherwise, it shall not be binding on the Bank to comply with such instructions. I understand that if I/we use my/our Savings account for business transactions the bank reserves the right to unilaterally freeze operations in such accounts. The Bank will be sending from time to time notices / correspondences to the address provided with the Bank/branch. Hence, it is incumbent upon the applicant(s) to intimate change in mailing address, if any, immediately without any loss of time. The Bank will not be responsible for any loss, damage, or consequences for wrong delivery of the above items arising out of non-intimation of change in mailing address. The account number is to be quoted in pay in slips / cheques issued by the account holder and in all the correspondences with the Bank. Alterations, if any, on cheques (Non-Clearing Instruments) are required to be authenticated by the drawer's full signature against each such alteration. Cheques Truncation system (CTS) instruments will be returned unpaid if altered. For Non-Clearing Cheques submitted at the base-branch the Bank/ branch reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alteration is authenticated by the drawer under full signature as per specimen on record with the Bank. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue and the drawer's signature should be uniform with that on record. No overdrawing is permissible in accounts. The Bank has the authority to debit the accounts to recover any amount credited erroneously. Collection of outstation instruments entail collection charges. Disputes, if any, in collection of cheques/ instruments will be dealt with as per Bank's Cheque Collection Policy. When a customer wants his/ her operative account at one branch to be transferred to another branch, he/ she has to give his/ her request in writing. Cheque may be tendered for collection sufficiently early in the day as required vis-à-vis the local clearing house times. Drawal against clearing cheques will be normally permitted only against cleared balances as per clearing house rules. Please don't keep the blank signed cheque books. Keep the cheque books in lock and key. Immediate credit of outstation / local cheques up to Rs.15000/- is permitted to satisfactorily operated Individuals Bank account holders. For further details, contact your branch. Fees & Charges: Fees and Charges will be applicable on my account and for other services availed by me, as described in the Most Important Term & Conditions / schedule of charges and on the website www.utkarsh.bank. Service Taxes and other statutory imposts as applicable from time to time will be levied on all fees. Interest Payment: Utkarsh Small Finance Bank pays interest quarterly on daily balance basis on my Savings Account only (not in current account) as per the rate applicable for the scheme code. I understand that the bank is permitted to offer differential rates of interest for amounts exceeding Rs. 1.00 lakh. Change in Fees & Charges, Services, and Interest Rate: Any change/discontinuation of Fees & Charges, Services, or Interest Rate will be intimated to me at least 30 days in advance through letter/SMS/website/email or other means. Recovery: If no funds are available in the account to pay fees/charges, I authorize Utkarsh Small Finance Bank to set off any available credit, including amounts flowing into the account from collection proceeds or any deposits. Inoperative Account: No transactions induced by me in the account for a period of 2 years or more is treated as an Inoperative account. Account Freeze: I authorize the bank to freeze my account in the following circumstances, with intimation to me except where specified otherwise a) When a minor, who is the holder of the account, attains majority b) If it is suspected by the bank that transactions in my account are not initiated by me (the Bank will not assume any liability for the transactions already executed) c) If it is suspected that my account is being misused as a money mule or as a channel for unauthorized money pooling or a conduit for any illegal activity (I will not receive a notice in this case).d) The bank receives statutory requests for freezing the account. e) If bank found Non compliance to KYC guidelines as amended from time to time. Account Closure: I authorize the

Each depositor in Utkarsh Small Finance Bank is insured by DICGC upto a maximum of ₹5,00,000 (Rupees Five Lakhs) for both principal and interest amount held by him/her in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank's licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.

☐ I hereby agree to Utkarsh Small Finance Bank Ltd./Subsidiaries/Affiliates/Agents contacting me for various other product updates, marketing promotions, special offers or any such information from time to time.

☐ I do hereby give my consent to receive such information through SMS/Phone Calls/e-mails or any other media.

I/We have read and understood the Terms and Conditions governing the opening of an account with Utkarsh small finance bank and those relating to various services including but not limited to (A) ATMs, (B) Phone Banking, (C) Debit Cards, (D) Mobile Banking, (E) Internet banking, (F) SMS Alert facility, (G) Email Statement. Further I understand that neither the bank nor its officers will be asking for account details/debit card details and Pin details at any point of time. Details mentioned for first applicant should be used for all communication and alerts related to this account.

 1 st Applicant Signature	 2 nd Applicant Signature	 3 rd Applicant Signature	 4 th Applicant Signature
---	---	---	---

Date: _____ Date: _____ Date: _____ Date: _____

इस संदर्भ में, "मैं", "मेरा" और "मुझ" खाते के सभी धारकों को संश्लिष्टित है। ते ही नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों को पढ़ा और समझा है और समझता है कि नियम एवं शर्तों में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट www.utkarsh.bank पर उपलब्ध होगा। खाता खोलना / सेवा प्राधान्य: खाता खोलने सहित सभी सेवाएं मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी / दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। यदि यह खाता नहीं खोला जाता है, तो प्रारंभिक वित्तपोषण राशि मुझे केवल डीडी के रूप में वापस कर दी जाएगी। सेवाएं: सभी सेवाएं उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक द्वारा प्रदान की जाएंगी, जो अत्यवधिगत घटनाओं के अधीन होगी। मेरे लिए उपलब्ध सेवाओं की पूरी सूची www.utkarsh.bank पर उपलब्ध होगी। धारक: खाताधारकों को पासवर्ड प्रदान करने के संबंध में विवेकाधिकार बैंक के पास है। चेक बुक: खाते के संतुलनचक्रण संभालने में तीसरे पक्ष को जारी किए गए चेक का सम्मान करने के लिए प्रयत्न शेष राशि बनाए रखना शामिल है। यदि इसके विपरीत बहुत अधिक घटनाएं (यानी धनराशि की कमी के कारण 3 से अधिक बार चेक रिटर्न) होती हैं, तो बैंक ग्राहक को सूचना देकर खाता बंद करने का अधिकार है। किसी भी विशेष निर्देश, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकृति के, जैसे स्थायी निवेश, भ्रूतगत नोट निर्देश, चेक बुक जारी करना आदि को निश्चित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। अन्यथा, ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि यदि मैं / हम व्यावसायिक लेनदेन के लिए अपने बचत खाते का उपयोग करने में तो बैंक को ऐसे खातों में एकरूपता संभालने को प्रोत्साहित करेगा। बैंक समय-समय पर बैंक/खाता के पते पर नोटिफ/पत्राचार भेजेगा। इसलिए, बिना समय-अधिक पत्राचार पते पर परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना देना आवेदक (को) के लिए अनिवार्य है। पत्राचार पते पर परिवर्तन की सूचना न होने के कारण उपर्युक्त मटी की गलत सुपुर्दगी के लिए बैंक किसी भी हानि, क्षति या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। खाताधारक द्वारा जारी भ्रूतगत-परिवर्तों / चेकों और बैंक के साथ सभी पत्राचार में खाता संख्या को उद्धृत किया जाना है। चेक (नॉन-कमिशन इस्ट्रुमेंट्स) पर संशोधन: यदि कोई हों, तो ऐसे परिवर्तन संशोधन को आभारगर्तक के पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। चेक ट्रेडरेशन सिस्टम (सीटीएस) लिखित में कोई संशोधन होने पर इसे बिना भ्रूतगत के वापस कर दिया जाएगा। भूल-खाता में प्रस्तुत किए गए गैर-वित्तीय/गैर लिखतों के मामले में लेन, बैंक/खाता को उन चेकों के भ्रूतगत से मान करने का अधिकार है। बैंक समय-समय पर संशोधन/निर्देशों में संशोधन को बैंक के पास उपलब्ध रिपोर्ट पर दिए गए नमूने के अनुसार पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित नहीं किया हो। चेक इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि खाता होले के बाद उनमें संशोधन नहीं किया जा सके और आह्वारकर्ता के हस्ताक्षर बैंक के रिपोर्ट पर मौजूद हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। खातों में ओवरड्रॉइंग की अनुमति नहीं है। बैंक को गलती से जमा की गई किसी भी राशि की वसूली के लिए खातों को डेबिट करने का अधिकार है। बाहरी लिखातों के संग्रह में संग्रह शुरू करता है। चेक/लिखातों के अंक/लिखातों में यदि कोई विवाद है तो बैंक की चेक संग्रहण करने के अनुसार निपटारा जाएगा। यदि कोई ग्राहक यह चाहता है कि किसी एक शाखा में संशोधित उसका खाता किसी दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जाए, तो उसे अपना अनुरोध लिखित में देना होगा। चेक को स्थानीय समाशोधन-गृह की समय-सीमा के अनुसार प्रसंस्करण के लिए पहले से आवश्यकतानुसार काही जट्टी जमा किया जा सकता है। क्लौयटिंग-चेकों के विरुद्ध आह्वान की अनुमति सामान्य रूप से केवल समाशोधन-गृह के नियमों के अनुसार अनुरोधित शेषराशि के विरुद्ध ही दी जाएगी। कृपया खाली हस्ताक्षरित चेक बुक न रखें। चेक बुक को ताले में बंद करके रखें। संतुलनचक्रण दंग से संशोधित किए जाने वाले व्यक्तिगत बैंक खाता धारकों को 15000/- रुपये तक के बाहरी/स्थानीय चेकों के लेनकल क्रेडिट की अनुमति है। अधिक जानकारी के लिए, अपनी शाखा से संपर्क करें। शुल्क और प्रभार: मेरे खाते पर और मेरे द्वारा तो गई अन्य सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार लागू होंगे, जिन्हें सबके महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तों / शुल्क अनुसार सूची में और वेबसाइट www.utkarsh.bank पर वर्णित किया गया है। समय-समय पर लागू सेवा और अन्य वैधानिक अधिपणन सभी शुल्क पर लागू होंगे। ब्याज भुगतान: उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक, योजना को के लिए लागू दर के अनुसार चेक/अनुरोध अनुरोध करते हैं (वाल्ड खाते में नहीं)। दैनिक शेष राशि के आधार पर वैसासिक वार्षिक का भुगतान करता है। मैं समझता हूँ कि बैंक ₹1.00 लाख से अधिक की राशियों के लिए अलग-अलग ब्याज दरों की पेराकश कर सकता है। शुल्कों और प्रभारों, सेवाओं और ब्याज दर में परिवर्तन: शुल्कों और प्रभारों, सेवाओं, या ब्याज दर में कोई भी बदलाव / बंद होकर के बारे में मुझे पत्र / एएसएमएस / वेबसाइट / ईमेल या अन्य माध्यमों से कम से कम 30 दिन पहले सूचित किया जाएगा। व्यक्ति: यदि धारक / प्रभारों का भ्रूतगत करने के लिए खाते में कोई धन उपलब्ध नहीं है, तो मैं उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक को जमा राशि या किसी भी अन्य आने वाली राशि जैसे किसी भी उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग कर भ्रूतगत करने के लिए अधिकृत करता हूँ। निष्क्रिय खाता: 2 साल या उससे अधिक की अवधि तक खाते में 2 सालों भरित कोई भी लेनदेन नहीं किया जाने पर इसे निष्क्रिय खाते के रूप में माना जाता है। खाता प्रीम: मैं बैंक को जहां अनधिकृत निरिच्छित किया गया है उस स्थिति को छोड़कर, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने खाते को प्रीम करने के लिए अधिकृत करता हूँ: a) जब एक अनपेक्षक, जो खाते का धारक है, वयस्कता प्राप्त करता है b) यदि बैंक को यह संदेह है कि मेरे खाते में लेनदेन मेरे द्वारा शुरू नहीं किया गए हैं (बैंक पहले से निष्पादित हो चुके लेनदेन के लिए कोई दायित्व नहीं लेगा) c) यदि यह संदेह है कि मेरे खाते का दुरुपयोग मैं मूल रूप से या अनधिकृत मनी प्रुसिंग के लिए एक पैनाल के रूप में या किसी भी अवैध गतिविधि के लिए एक वाहक के रूप में हो रहा है (मुझे इस मामले में नोटिस नहीं मिलेगा।) d) बैंक को खाते को छोड़कर के लिए वैधानिक अनुरोध प्राप्त होता है। e) यदि बैंक को समय-समय पर संशोधित केवाईडी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का पता चलता है। खाता बंद करना: मैं बैंक को मुझे पूर्ण सूचना देकर अपने खाते को बंद करने के लिए अधिकृत करता हूँ। यदि a) खाते में शेष राशि 3 महीने या उससे अधिक समय तक शून्य रहती है या यदि बैंक से असीलत-भुगतान की अधिक उचित धारणाएं होती हैं। b) पूर्ण सूचना के साथ बैंक द्वारा लघु वित्त बैंक कोई अन्य घटना। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बैंक किसी वैधानिक नोटिफ़ीस का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जिसमें मुझे नोटिफ़ेस देकर या बिना नोटिफ़ेस दिए मेरे खाते को बंद करना शामिल है। खाता रखापण (वेतन बचत खाता धारक के लिए): यदि मेरे वेतन खाते में 3 महीने की अवधि तक वेतन जमा नहीं किया जाता है, तो खाता स्वचालित रूप से बिना किसी नोटिफ़ेस या सूचना (सभी लागू मुद्राओं और प्रभारों के साथ) के सामान्य बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगा और पूर्ण वेतनाई लागू होगा, ऐसा नहीं करने पर खाते पर क्रेडिट फ्रीज लगा दिया जाएगा। लेन-देन: वित्तीय/गैर-वित्तीय प्रवृत्ति (जैसे: चेक बुक/काही जारी करना, वित्तीय लेनदेन, व्यक्तिगत वित्तपोषण का अप्रेशन आदि) के खाते के संबंध में उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक को कोई भी निर्देश मेरे द्वारा केवल अधिपूत-वैधानिक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जो उस समय प्रविकसित नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उन अनुदेशों पर कार्रवाई करे जो प्राधिकृत चैनलों के माध्यम से नहीं आते हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ऐसी सूचनाएं प्रदान करने के लिए अपने विवेकाधिकार पर कार्य करने का अधिकार है। चैनल सुविधाएं: उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी चैनल सुविधाएं जिनमें डेबिट काई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग आदि शामिल हैं। ये विधिगत दिशानिर्देशों के अधीन हैं www.utkarsh.bank पर उपलब्ध किए गए हैं और मुझे सीपे गए नियम एवं शर्तों के अनुसार हैं। मैं समझता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं अपने खाते की किसी भी संवेदनशील जानकारी को विवेक से से इंटरनेट / ईमेल / फोन माध्यम से काही भी साझा नहीं करूंगा और उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक इस तरह के प्रकटीकरण से उत्पन्न धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी नहीं है। मैं अपने खाते से जुड़े चेक लीफ, डेबिट काई जो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करने का वचन भी देता हूँ। डेबिट काई: डेबिट काई का उपयोग विनियम नियंत्रण विनियमन के अनुसार होगा और किसी भी विफलता की स्थिति में, काई धारक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधनों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए अस्वीकार्य: मैं / हम स्वीकार करते हैं कि उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग समय-समय पर लागू नियमों एवं शर्तों द्वारा शासित होता है जैसा कि www.utkarsh.bank पर निर्धारित किया गया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं/हम जानते हैं कि उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक लिमिटेड अपने ग्राहकों से ई-मेल सहित किसी भी रूप में लॉगिन आडिडी/पासवर्ड से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगता है। मैं/हम आगे सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उत्कृष्ट लघु वित्त बैंक किसी को मेरे द्वारा लॉगिन आडिडी, पासवर्ड, काई, काई संख्या या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का साझाकरण/प्रकटीकरण से किए जाने से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न कि किसी अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक पर दावा करने के लिए। हम अपने खाते के विवरण की सुरक्षा के लिए सभी साधारणतया बरतने वाले किसी भी अनधिकृत उपयोग से बचा जाना चाहते हैं। अप्रत्याशित घटना: इसमें निहित बैंक के दायित्व एक शाखा की घटना के अंतर्भूत होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को अपने दायित्वों को पूरा करने में रोकथाम या देरी या रकबाव होगा, यदि ऐसी रोकथाम, देरी या रकबाव किसी अप्रत्याशित घटना के कारण होती है, [जिसमें बैंक के उचित नियंत्रण से परे कोई घटना शामिल होगी, जैसे कि किसी भी संचार प्रणाली की अल्पव्यवस्था, तोफोड, आग, बाढ़, विस्फोट, दैवीय आपदा, नागरिक हंगामा, हड़ताल या किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, विद्रोह, युद्ध या सरकार की कार्रवाईयां, कानून में परिवर्तन और नियामक प्रकृति के अन्य संबद्ध कार्य] तो जब तक कि ऐसा कोई कारण या उसका प्रभाव बना रहता है (बर्तते कि यह किसी भी बकाया राशि पर ब्याज के कारण को रोक नहीं पाएगा जो यह घावने के बाद भी उत्पन्न होगा) और उसके बाद एक उचित अवधि के दौरान जिसमें ऐसे किसी भी दायित्व को पूरा करने में यह सक्षम नहीं है, तब तक बैंक को चुककर्ता नहीं माना जाएगा। मैं/हम आगे यह कारणी से दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता के कारण किसी भी पक्ष से उत्पन्न किसी भी कार्रवाई या दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता का डीआईआईसीजीसी द्वारा अधिकतम ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का बीमा किया जाता है, जो बैंक के परिसमापन या बैंक का लाइसेंस रद्द करने की तारीख या बैंक के समामेलन/ विलय/ पुनर्निर्माण की योजना लागू होने की तारीख को उसके द्वारा धारित मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकार और क्षमता के समान होता है।

अन्य उत्पादों और पेशकश के बारे में जानकारी

☐ मैं इस बात से सहमत हूँ कि उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड/सहायक कंपनियाँ/ संबंधित कंपनियाँ/ एजेंट समय-समय पर अन्य विभिन्न उत्पादों के बारे में नई जानकारी देने, मार्केटिंग प्रमोशन, विशेष ऑफ़र या ऐसी किसी अन्य जानकारी देने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं।

☐ मैं एसएमएस/फोन कॉल/ई-मेल या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ।

संयुक्त आवेदक विवरण (संयुक्त खातों के लिए अनिवार्य, कृपया संयुक्त आवेदकों के लिए अलग-अलग फॉर्म का उपयोग करें)

दूसरे आवेदक का नाम		पहले आवेदक के साथ संबंध		सीआईएफ
	मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य सीआईएफ आईडी नहीं है, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो बैंक को मुझे पूर्व सूचना दिए बिना सीआईएफ आईडी को समेकित करने का अधिकार है।			
तीसरे आवेदक का नाम		पहले आवेदक के साथ संबंध		सीआईएफ
	मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य सीआईएफ आईडी नहीं है, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो बैंक को मुझे पूर्व सूचना दिए बिना सीआईएफ आईडी को समेकित करने का अधिकार है।			
चौथे आवेदक का नाम		पहले आवेदक के साथ संबंध		सीआईएफ
	मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य सीआईएफ आईडी नहीं है, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो बैंक को मुझे पूर्व सूचना दिए बिना सीआईएफ आईडी को समेकित करने का अधिकार है।			

हमने उक्तर्क समुचित वित्त बैंक के साथ खाता खोलने को नियंत्रित करने वाले और (A) एटीएम, (B) फोन बैंकिंग, (C) डेबिट कार्ड, (D) मोबाइल बैंकिंग, (E) इंटरनेट बैंकिंग, (F) एसएमएस अलर्ट सुविधा, (G) ईमेल स्ट्रेमटेड इत्यादि विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों एवं शर्तों को पढ़ा और समझा है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि न तो बैंक और न ही उसके अधिकारी किसी भी समान यात्रा का विवरण/ डेबिट कार्ड विवरण और पिन विवरण मांगेंगे। पहले आवेदक के लिए उल्लिखित विवरण का उपयोग इस खाते से संबंधित सभी संचार और अलर्ट के लिए और जमाया चाहिए।

			
पहले आवेदक के हस्ताक्षर	दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर	तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर	चौथे आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक: _____ दिनांक: _____ दिनांक: _____ दिनांक: _____

अटी व शर्ती (बँकेची प्रत)

[illegible]

उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराला शी.आय.सी.जी.सी कडून जास्तीत जास्त '5,00,000 (रुपये पाच लाख) पर्यंत विमा दिला जातो जे बँकेचे परिसमापन / तिचा परवाना रद्द होण्याच्या तारखेस किंवा एकत्रीकरण/ विलीनीकरण / पुनर्रचना यांची योजना अंमलात येण्याच्या तारखेस त्याच्याकडे/तिच्याकडे असलेल्या मृदद्वारे आणि व्याजाच्या रक्कमसाठी समान अधिकार आणि समान क्षमतेने असेल.

इतर उत्पादनांविषयी आणि देऊ केलेल्या गोष्टींबद्दल माहिती

☐ मी उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड / उपकंपन्या / सलग्न संस्था / एजेंट्स यांनी वेळोवेळी इतर विविध उत्पादनांची अद्यतने, विपणन जाहिराती, विशेष ऑफर्स किंवा अशा कोणत्याही माहितीसाठी माझ्याशी संपर्क साधण्यासाठी मी सहमत आहे.

☐ मी एस.एम.एस/ फोन कॉल्स/ ई-मेल किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे अशी माहिती मिळविण्यास संमती देत आहे.

संयुक्त अर्जदाराची माहिती (संयुक्त खात्यांसाठी अनिवार्य, संयुक्त अर्जदारांसाठी स्वतंत्र फॉर्मस वापरावेत)

[illegible]

तीसरे आवेदक का नाम पहले आवेदक के साथ संबंध सी.आय.एफ

☐ मैं पुष्टी करता हूँ कि वर नमूद केल्यावतिरिक्त माइयाकडे कोणताही सी.आय.एफ आयडी नाही, जर तो सापडल्यास बँकेने निर्णय घेतल्याप्रमाणे मला कोणताही पूर्वसूचना न देता सी.आय.एफ चे एकत्रीकरण करण्याचा अधिकार बँकेने राखून ठेवलेला आहे.

यौथे आवेदक का नाम पहले आवेदक के साथ संबंध सी.आय.एफ

☐ मैं पुष्टी करता हूँ कि वर नमूद केल्यात्यतिरिक्त माइयाकेडे कोणताही सी.आय.एफ आयडी नाही, जर तो सापडल्यास बॅंकेने निर्णय घेतल्याप्रमाणे मला कोणतीही पूर्वसूचना न देता सी.आय.एफ चे एकत्रीकरण करण्याचा अधिकार बॅंकेने राखून ठेवलेला आहे.

उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बैंक आणि विविध सेवांशी संबंधित, ज्यात (ए) ए.टी.एम, (बी) फोन बँकिंग, (सी) डेबिट कार्ड, (डी) मोबाइल बँकिंग, (इ) इंटरनेट बँकिंग, (एफ) एस.एम.एस अलर्ट सुविधा, (जी) ईमेल स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे परंतु तेवढ्या पुरते मर्यादित नाही, खाते उघडण्याच्या अटी आणि शर्ती मी / आम्ही वाचल्या आणि समजून घेतलेल्या आहेत. शिवाय मला समजले आहे की बँक किंवा त्याचे अधिकारी कधीही खात्याची माहिती / डेबिट कार्डची माहिती आणि पिनची माहिती विचारणार नाहीत. प्रथम अर्जदारासाठी नमूद केलेली माहिती या खात्याशी संबंधित सर्व संवाद साधण्यासाठी आणि अलर्टसाठी वापरली पाहिजे.



पहिल्या अर्जदाराची स्वाक्षरी



दुसऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी



तिसऱ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी



चौथ्या अर्जदाराची स्वाक्षरी

तारीख: _____

तारीख: _____

तारीख: _____

तारीख: _____

Instruction for Fixed Deposit/Recurring Deposit:

I/We wish to open Fixed deposit/Recurring deposit as ticked below

Holding Pattern for FD/RD*		Operating Instruction*				Fixed Deposit/Recurring Deposit*	
☐ 1st Applicant only	☐ 2nd Applicant only	☐ Single	☐ Either or Survivor	☐ Jointly	☐ Former & Survivor	☐ Normal	☐ Senior Citizen
☐ 1st & 2nd Applicant only	☐ Others... Please specify...	☐ Minor under Guardian		☐ Any one or Survivor		☐ Staff	

In the event of death of the depositor, premature liquidation of term deposit will be allowed. Such premature liquidation will not attract any penal charge. In the event of death of one of the joint account holder the right to the deposit proceeds does not automatically devolve on the surviving joint deposit holder, unless there is survivor clause. I/we agree that in case of joint deposit with survivorship clause the bank shall be discharged by paying the fixed deposit proceeds prematurely to survivors, on request, in the event of death of one or more joint depositor.

FD/RD Amount (₹)*	FD/RD Tenure*		Rate of Interest %	Interest Payment*			Maturity Instruction*		
	Months	Days		Monthly	Quarterly	Maturity	Auto Closure (Credit Principal & Interest)	Renew Principal & Interest	Renew Principal

Please Debit ☐ New A/C / Existing A/C no. For RD Instalment/FD Booking and also credit the maturity/Interest

Amount in words : _____

☐ I/We wish to have the maturity/interest payout through Demand Draft at my mailing address for the above FD/RD.

TDS details for FD: Deduct TDS (If applicable)* ☐ Yes ☐ No if no attach ☐ Form 15 G/H ☐ Income tax exemption letter ☐ Waiver marked on cust. ID

Tax deduction at source

- TDS rates will be as applicable from time to time as per income tax act, 1961 and income tax rules. The current rates applicable for TDS would be displayed by the Bank on its website. Currently, TDS is deducted when interest payable or reinvested per customer per bank exceed ₹10,000/- in a Financial year.
- No deduction of tax shall be made for taxable interest in the case of individual resident in India. If such individual furnishes to the bank, a declaration in writing in the prescribed form 15G/15H (as applicable) to the effect that the tax on his estimated total income for the year in which such interest income is to be included in computing his total income will be NIL.
- Form 15G/15H to be submitted in triplicate every financial year and for all subsequent deposit booked in the financial year. A sequence number would be given to the customer once form 15G/15H is submitted.
- The Bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non submission of form 15G/15H.
- As per section 139A(5A) of the income Tax Act, every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provision of income tax act shall provide his PAN number to the person responsible for deducting such tax. In case the PAN number is not provided the bank shall not be liable for the non availing of the credit of tax deducted at source.
- PAN is required to be submitted to the Bank for Fixed deposit of ₹50000/- or more
- PAN is required to be submitted to the Bank once the aggregate Fixed deposit amount in a financial year reaches ₹500000/-
- As per section 206 AA introduced by Finance (no.2) Act. 2009 wef 01.04.2010, every person who receives income on which TDS is deductible shall furnish his PAN falling which TDS shall be deducted as at the rate of 20% in case of domestic deposits. Please further note that in the absence of PAN, form 15G/H and other exemption certificate will be invalid even if submitted & penal TDS will be applicable.
- Notice: The above is subject to change as per directives of the Finance Ministry Govt. of India.



Signature of Applicant

सावधि जमा/आवर्ती जमा के लिए अनुदेश:

मैं/हम नीचे सही का निशान लगाए गए सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना चाहते हैं

सावधि जमा/आवर्ती जमा के लिए स्वामित्व पैटर्न*		संचालन निर्देश*		सावधि जमा/आवर्ती जमा*	
☐ केवल पहला आवेदक	☐ केवल दूसरा आवेदक	☐ अविवाहित ☐ दोनों में से कोई या उत्तरजीवी	☐ संयुक्त ☐ पूर्व और उत्तरजीवी	☐ सामान्य ☐ वरिष्ठ नागरिक	
☐ केवल पहला और दूसरा आवेदक	☐ अन्य ... कृपया निर्दिष्ट करें ...	☐ अग्निभावक के प्रतिनिधित्व में अवयस्क	☐ कोई एक या उत्तरजीवी	☐ स्टाफ	

जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, सावधि जमा के समय से पहले परिसमापन की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के समय पूर्व परिसमापन पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा। संयुक्त खाताधारक में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीविता खंड न होने पर, जमा प्राप्तियों का अधिकार जीवित बचे रहने वाले संयुक्त जमा धारक को स्वचालित रूप से हस्तांतरित नहीं होता है। हम इस बात से सहमत हैं कि उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त जमा के मामले में, एक या अधिक संयुक्त जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, अनुरोध किए जाने पर, बचे हुए लोगों को सावधि जमा आय का समय से पहले भुगतान करके बैंक को मुक्त कर दिया जाएगा।

सावधि जमा/आवर्ती जमा राशि (₹)*	सावधि जमा/आवर्ती जमा अवधि*		ब्याज दर %	ब्याज भुगतान*			परिपक्वता निर्देश*		
	महीने	दिन		मासिक	त्रैमासिक	परिपक्वता	ऑटो क्लोजर (क्रेडिट मूलधन और ब्याज)	मूलधन और ब्याज नवीनीकृत करें	मूलधन नवीनीकृत करें

कृपया डेबिट करें ☐ नया खाता / मौजूदा खाता संख्या आवर्ती जमा किस्त / सावधि जमा बुकिंग के लिए और परिपक्वता / ब्याज भी जमा करें

शब्दों में राशि: _____

☐ मैं/हम उपर्युक्त सावधि जमा/आवर्ती जमा के लिए अपने पत्राचार पते पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परिपक्वता/ब्याज भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं।

सावधि जमा के लिए टीडीएस विवरण: टीडीएस कार्टे ☐ हाँ ☐ नहीं यदि संलग्न नहीं है ☐ फॉर्म 15 जी/एच ☐ आयकर छूट पत्र ☐ छूट को ग्राहक आईडी पर चिह्नित किया गया है। (यदि लागू हो)*

स्रोत पर कर कटौती

- आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियमों के अनुसार समय-समय पर लागू टीडीएस दरें होंगी। टीडीएस के लिए लागू वर्तमान दरों को बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। वर्तमान में, टीडीएस तब काटा जाता है जब प्रति ग्राहक प्रति बैंक देय देय ब्याज या पुनर्निवेश एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 /- से अधिक होता है।
- भारत में व्यक्तिगत निवासी के मामले में कर योग्य ब्याज के लिए कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि ऐसा व्यक्ति बैंक को निर्धारित प्रपत्र 15जी/15एच (जैसा भी लागू हो) में लिखित में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसकी अनुमानित कुल आय पर कर उस वर्ष के लिए जिसमें ऐसी ब्याज आय को उसकी कुल आय के परिकलन में शामिल किया जाना है, शून्य होगा।
- फॉर्म 15जी/15एच को हर वित्त वर्ष में तीन प्रतियों में जमा करना होगा और बाद में वित्तीय वर्ष में बुक किए गए सभी जमा के लिए जमा करना होगा। फॉर्म 15जी /15एच जमा करने के बाद ग्राहक को एक अनुक्रम संख्या दी जाएगी।
- बैंक फॉर्म 15जी/15एच जमा करने में देरी या जमा न करने के कारण होने वाले किसी भी परिणाम या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5 ए) के अनुसार, आयकर अधिनियम के प्रावधान के तहत आय की ऐसी कोई भी राशि या ऐसी राशि जिसमें से कर काटा गया है, प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह की कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी पै न संख्या प्रदान करनी होगी। यदि पै न संख्या प्रदान नहीं की जाती है, तो बैंक उस व्यक्ति को स्रोत पर काटे गए कर के क्रेडिट का लाभ नहीं मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ₹50000/- या उससे अधिक की सावधि जमा के लिए बैंक को पै न प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- एक वित्तीय वर्ष में कुल सावधि जमा राशि ₹500000 /- तक पहुंचने के बाद बैंक को पै न जमा करना आवश्यक है।
- वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा दिनांक 01.04.2010 से शुरू की गई धारा 206 ए के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी आय को प्राप्त करता है जिस पर टीडीएस कटौती योग्य है, उसे अपना पै न प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऐसा न करने पर घरेलू जमा के मामले में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा "कृपया आगे ध्यान दें कि पै न के अभाव में, फॉर्म 15 जी एच और अन्य छूट प्रमाण पत्र अमान्य होंगे, भले ही वे प्रस्तुत किए जाएं और दंडात्मक टीडीएस लागू होगा।
- नोटिस: उपर्युक्त विवरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है।



आवेदक के हस्ताक्षर

मुदत ठेवसाठी / आवर्ती ठेवसाठी सूचना :

मला / आम्हाला खाली टिक केल्याप्रमाणे मुदत ठेव / आवर्ती ठेव काढायची आहे

एफ.डी / आर.डी साठी धारण करण्याचे स्वरूप (होल्डिंग पॅटर्न)*		कामकाजासाठी सूचना*		मुदत ठेव / आवर्ती ठेव*	
☐ फक्त पहिला अर्जदार	☐ फक्त दुसरा अर्जदार	☐ एकटयाने	☐ दोन्हीपैकी एक किंवा मागे जगणारा	☐ संयुक्तपणे	☐ आधीचा किंवा मागे जगणारा (सहोईवर)
☐ फक्त पहिला आणि दुसरा अर्जदार	☐ इतर कृपया उल्लेख करा	☐ संरक्षक अंतर्गत अल्पवयीन	☐ कोणीही किंवा मागे जगणारा (सहोईवर)	☐ साधारण	☐ ज्येष्ठ नागरिक
				☐ कर्मचारी वर्ग	

ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यास, मुदत ठेवीचे मुदतपूर्व परिसमापन (लिक्विडेशन) करण्यास परवानगी दिली जाईल. असे मुदतपूर्व परिसमापन (लिक्विडेशन) केल्यावर कोणतेही दंडात्मक शुल्क आकारले जाणार नाही. संयुक्त खातेदारांपैकी एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, मागे जगणाऱ्याचा (सहोईवर) कलम असण्याव्यतिरिक्त, ठेवीच्या रकमचा अधिकार आपोआप जिवंत संयुक्त ठेवधारकाकडे स्थानांतरित होत नाही. मी/ आम्ही सहमत आहोत की उत्तरजीवित कलमसह (सहोईवरशिप क्लॉजसह) संयुक्त ठेवीच्या बाबतीत, एक किंवा अधिक संयुक्त ठेवीदाराचा मृत्यू झाल्यास, विनंतीनुसार, मुदत ठेवीची रकम मुदतपूर्व अदा करून बँकेला मुक्त केले जाईल.

एफ.डी/आर.डी ची रक्कम (₹)*	एफ.डी/आर.डी चा कालावधी*		व्याज दर %	व्याजाचा भरणा*			मुदतपूर्तीच्या सूचना*		
	महिने	दिवस		दरमहा	त्रैमासिक	मुदतपूर्ती वर	आपोआप समापन (मुददल आणि व्याज क्रेडिट केले पाहिजे)	मुददल आणि व्याजाची मुदतवाद करा	मुददलची मुदतवाद करा

कृपया डेबिट करा ☐ नवीन खाते / विद्यमान खाते क्रमांक आर.डी हप्त्यासाठी / एफ.डी बुकिंगसाठी आणि मुदतपूर्तीची रक्कम / व्याज सुद्धा क्रेडिट करा


शब्दांमध्ये रक्कम : _____

☐ मला/ आम्हाला वरील एफ.डी / आर.डी साठी माझ्या मेलिंग पत्त्यावर डिमांड ड्राफ्टद्वारे मुदतपूर्तीची रक्कम / व्याज यांचा भरणा हवा आहे.

एफ.डी साठी टी.डी.एस ची माहिती: टी.डी.एस वजा करा ☐ होय ☐ नाही काही संलग्न नसल्यास ☐ फॉर्म 15 जी/एच ☐ प्राप्तिकर सवलतीचे पत्र ☐ याहक आय.डी वर सवलत चिन्हांकित केलेली आहे (लागू असल्यास)*

स्त्रोतावरील कर वजावट

- प्राप्तिकर कायदा 1961 आणि प्राप्तिकर नियमांनुसार टी.डी.एस चे दर वेळोवेळी लागू होतील. टी.डी.एस साठी लागू असलेले सध्याचे दर बँक आपल्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करेल. सध्या, जेव्हा प्रत्येक बँकेत प्रति ग्राहक व्याज देय असेल किंवा पुनर्गुंतवणूक केली असेल जे आर्थिक वर्षात रु. 10,000/- पेक्षा जास्त असेल तेव्हा टी.डी.एस कापला जातो.
- भारतातील रहिवासी व्यक्तींच्या बाबतीत करपात्र व्याजासाठी कराची कोणतीही कपात केली जाणार नाही. जर अशा व्यक्तीने विहित नमुन्यात 15जी/15एच (लागू असेल तसे) लेखी स्वरूपात बँकेला घोषणा सादर केली अशा प्रभावासाठी की ज्या वर्षी अशा व्याजाच्या उत्पन्नाचा समावेश त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या मोजणीत करायचा आहे, त्या वर्षासाठी त्याच्या अंदाजित एकूण उत्पन्नावरील कर शून्य असेल.
- फॉर्म 15जी/ 15एच च्या तीन प्रती प्रत्येक आर्थिक वर्षात आणि त्यानंतर आर्थिक वर्षात बुक केलेल्या सर्व ठेवींसाठी सादर केल्या गेल्या पाहिजेत. ग्राहकाने फॉर्म 15जी / 15एच सादर केल्यानंतर त्याला एक अनुक्रम क्रमांक देण्यात येईल."
- फॉर्म 15जी / 15एच सादर करण्यास उशीर झाल्यास किंवा तो न सादर केल्यामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामासाठी किंवा नुकसानीसाठी बँक जबाबदार राहणार नाही.
- प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139 ए(5ए) नुसार, प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या उत्पन्नातून किंवा रक्कम मधून कर वजा करण्यात आला आहे, ती रक्कम प्राप्त करणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याचा पॅन क्रमांक असा कर वजा करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीला देईल. पॅन क्रमांक न दिल्यास स्त्रोतावर कापलेल्या कराच्या क्रेडिटचा लाभ न घेतल्याबद्दल बँक जबाबदार राहणार नाही.
- रु. 50000/- किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमच्या मुदत ठेवीसाठी पॅन कार्ड बँकेत सादर केला गेला पाहिजे.
- एखाद्या आर्थिक वर्षातील एकूण मुदत ठेवीची रक्कम रु. 500000/- पर्यंत पोहोचल्यानंतर पॅन बँकेत सादर केला गेला पाहिजे.
- 01.04.2010 पासून लागू केलेल्या वित्त (क्र.2) कायदा 2009 च्या अनुसार, प्रत्येक व्यक्तीने, ज्याला असे उत्पन्न मिळते ज्यावर टी.डी.एस कापला जातो, आपले पॅन सादर करावे, तसे न केल्यास देशांतर्गत ठेवीच्या बाबतीत 20% दराने टी.डी.एस कापला जाईल "कृपया पुढे लक्ष असू द्या की पॅन नसणे हे फॉर्म 15जी आणि इतर सवलत प्रमाणपत्र सादर केले तरीही त्यांना अवैध ठरवेल आणि दंडात्मक टी.डी.एस लागू होईल."
- सूचना: भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार वरील गोष्टींमध्ये बदल केले जाऊ शकतात.



Terms & Conditions (Customer Copy)

I (In this context, "I", "my" and "me" refers to all holders of the account) have read and understood the below T&C and understand that any changes to the T&C will be available on the website www.utkarsh.bank only. Account opening/service provision: All services, including opening of the account are subject to verification of information/documents provided by me. In the event this account is not opened, initial funding amount will be refunded to me in the form of a DD only. Services: All services will be provided by Utkarsh Small Finance Bank subject to force majeure circumstances. The complete list of services available to me will be available on www.utkarsh.bank. Passbook: The discretion lies with the Bank regarding providing pass books to account holders. Cheque Book: Satisfactory conduct of the account entails maintaining sufficient balance to honor cheques issued to third parties. If there are high incidences (i.e. more than 3 cheque returns for want of funds) to the contrary, the Bank reserves the right to close the account under intimation to the customer. Any special instructions, both financial and non-financial in nature, like standing instructions, stop payment instructions, issuance of cheque books etc must be communicated in writing. Otherwise, it shall not be binding on the Bank to comply with such instructions. I understand that if I/we use my/our Savings account for business transactions the bank reserves the right to unilaterally freeze operations in such accounts. The Bank will be sending from time to time notices / correspondences to the address provided with the Bank/branch. Hence, it is incumbent upon the applicant(s) to intimate change in mailing address, if any, immediately without any loss of time. The Bank will not be responsible for any loss, damage, or consequences for wrong delivery of the above items arising out of non-intimation of change in mailing address. The account number is to be quoted in pay in slips / cheques issued by the account holder and in all the correspondences with the Bank. Alterations, if any, on cheques (Non-Clearing Instruments) are required to be authenticated by the drawer's full signature against each such alteration. Cheques Truncation system (CTS) instruments will be returned unpaid if altered. For Non-Clearing Cheques submitted at the base-branch the Bank/ branch reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alteration is authenticated by the drawer under full signature as per specimen on record with the Bank. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue and the drawer's signature should be uniform with that on record. No overdrawing is permissible in accounts. The Bank has the authority to debit the accounts to recover any amount credited erroneously. Collection of outstation instruments entail collection charges. Disputes, if any, in collection of cheques/ instruments will be dealt with as per Bank's Cheque Collection Policy. When a customer wants his / her operative account at one branch to be transferred to another branch, he / she has to give his / her request in writing. Cheque may be tendered for collection sufficiently early in the day as required vis-à-vis the local clearing house times. Drawal against clearing cheques will be normally permitted only against cleared balances as per clearing house rules. Please don't keep the blank signed cheque books. Keep the cheque books in lock and key. Immediate credit of outstation / local cheques up to Rs.15000/- is permitted to satisfactorily operated Individuals Bank account holders. For further details, contact your branch. Fees & Charges: Fees and Charges will be applicable on my account and for other services availed by me, as described in the Most Important Term & Conditions / schedule of charges and on the website www.utkarsh.bank. Service Taxes and other statutory imposts as applicable from time to time will be levied on all fees. Interest Payment: Utkarsh Small Finance Bank pays interest quarterly on daily balance basis in your Savings Account only (not in current account) as per the rate applicable for the scheme code. I understand that the bank is permitted to offer differential rates of interest for amounts exceeding Rs.1.00 lakh. Change in Fees & Charges, Services, and Interest Rate: Any change/discontinuation of Fees & Charges, Services, or Interest Rate will be intimated to me at least 30 days in advance through letter/SMS/website/email or other means. Recovery: If no funds are available in the account to pay fees/charges, I authorize Utkarsh Small Finance Bank to set off any available credit, including amounts flowing into the account from collection proceeds or any deposits. Inoperative Account: No transactions induced by me in the account for a period of 2 years or more is treated as an Inoperative account. Account Freeze: I authorize the bank to freeze my account in the following circumstances, with intimation to me except where specified otherwise a) When a minor, who is the holder of the account, attains majority b) If it is suspected by the bank that transactions in my account are not initiated by me (the Bank will not assume any liability for the transactions already executed) c) If it is suspected that my account is being misused as a money mule or as a channel for unauthorized money pooling or a conduit for any illegal activity (I will not receive a notice in this case).d) The bank receives statutory requests for freezing the account. e) If bank found Non compliance to KYC guidelines as amended from time to time. Account Closure: I authorize the bank to close my account, with prior intimation to me, in case of a) balance in the account remains zero for 3 months or more high occurrences of dishonoured payments from my account. b) Any other event as decided by the Bank with prior intimation. Further I understand that the bank is obligated to honour all statutory notices including closure of my/our account with/without notice to me. Account Conversion (applicable for Salary Savings account holder): If salary is not credited for a period of 3 months into my Salary Account, the account will be automatically converted to a normal savings account without any notice or intimation (with all applicable charges & fees) and full KYC will apply, failing which there will be a credit freeze placed on the account. Transactions: Any instructions to Utkarsh Small Finance Bank regarding the account, both of a financial/non-financial nature (e.g.: Issuance of Cheque book/card, financial transactions, updation of personal details etc.) will be provided by me through the authorized channels only, which will be specified by the bank, based on regulatory guidelines prevailing at that time. Utkarsh Small Finance Bank is not expected to act on instructions that do not come in through the authorized channels, but reserves the right to act upon its discretion to provide such facilities under extraordinary circumstances. Channel facilities: All channel facilities provided by Utkarsh Small Finance Bank including Debit Cards, ATMs, Internet Banking etc. are subject to specific guidelines that are provided on www.utkarsh.bank and as per the T&Cs handed over to me. I/We agree and undertake that I/We shall never part with any sensitive information of my/our account especially through internet/email/phone medium and Utkarsh Small Finance Bank is not liable for fraud arising from such disclosures. I also undertake to inform the bank immediately in case of loss of cheque leaf(s), Debit Card(s) linked to my account. Debit Card: The usage of the Debit card will be in accordance with the Exchange Control Regulation and in the event of any failure, the card holder will be liable for action under the Foreign Exchange Management Act 1999 and the amendments thereof of stipulated by the Reserve Bank of India. Disclaimer for Utkarsh Small Finance Bank Internet Banking: "I/We acknowledge that the issue, usage of Utkarsh Small Finance Bank Internet Banking facility is governed by terms & conditions in force from time to time as set forth on the www.utkarsh.bank and agree to abide by the same. I/We am/are aware that Utkarsh Small Finance Bank Ltd does not seek any information relating to login ID/Password in any form including through e-mails from its customers. I/We further agree and confirm that Utkarsh Small Finance Bank shall not be liable for any losses arising from my/our sharing/disclosing of login ID, password, cards, card numbers or PIN (Personal Identification Number) to anyone, nor shall make claims on the bank for any unauthorized use. I/We shall take all precautions to protect my/our account details so as to avoid any unauthorized use. Force Majeure: Bank's obligations contained herein will be subject to any occurrence resulting in prevention from or delay or interruption in performing its obligations if such prevention, delay or interruption is due to Force Majeure event, [which would include any event beyond the reasonable control of Bank, including, without limitation, unavailability of any communication system, sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, civil commotion, strikes or industrial action of any kind , riots, insurrection, war or acts of government, changes in legislation and other allied acts of regulatory nature] then Bank shall not be deemed to be in default so long as any such cause or the effect thereof persists (provided that this shall not prevent the accrual of interest on any outstanding amount which would have been payable but for this provision)and during a reasonable period thereafter within which any such obligations are not capable of being fulfilled. Bank shall not be liable for any action or claim, from any party, arising out of its inability to perform the obligations for the reasons stated herein.

Each depositor in Utkarsh Small Finance Bank is insured by DICGC upto a maximum of ` 5,00,000 (Rupees Five Lakhs) for both principal and interest amount held by him/her in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank's licence or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.

नियम एवं शर्तें (ग्राहक प्रति)

में (इस संदर्भ में, "मी", "मेरा" और "मुझ्" खाते के सभी धारकों को संदर्भित करता है) ने नीचे दिए गए नियम एवं शर्तों को पढ़ा और समझा है और समझता हूं कि नियम एवं शर्तों में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट www.utkarsh.bank पर उपलब्ध होगा। खाता खोलना / सेवाएं प्रवाधान: मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी / दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही खाता खोलने सहित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यदि यह खाता नहीं खोला जाता है, तो प्रारंभिक वित्तपोषण राशि मुझे केवल डीडी के रूप में वापस कर दी जाएगी। सेवाएं: सभी सेवाएं उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा प्रदान की जाएंगी, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अधीन होंगी। पासबुक: खाताधारकों को पासबुक प्रदान करने के संबंध में बैंक का विवेकाधिकार है। चेक बुक: खाते के संतोषजनक संचालन में तीसरे पक्ष को जारी किए गए चेक का सम्मान करने के लिए प्प्याप्त शेष राशि बनाए रखना शामिल है। यदि इसके विपरीत उच्च घटनाएं (यानी धन की कमी के लिए 3 से अधिक चेक रिटर्न) होती हैं, तो बैंक ग्राहक को सूचना देकर खाता बंद करने का अधिकार है। किसी भी विशेष निर्देश, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकृति के, जैसे स्थायी निर्देश, भुगतान करने के निर्देश, चेक बुक जारी करना आदि को लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। अन्यथा, ऐसे अनुरोधों का अनुपालन करना बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यदि मैं /हम व्यावसायिक लेनदेन के लिए अपने बचत खाते का उपयोग करते हैं तो बैंक ऐसे मामलों में एकरूपता संचालन को फ्रीज करने का अधिकार है। बैंक समय-समय पर बैंक/शाखा के पते पर नोटिस/पत्राचार भेजेगा। जुसलिए, आवेदक (को) के लिए बिना कोई समय गंवाए पत्राचार पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की तुरंत सूचना देना अनिवार्य है। पत्राचार पते में परिवर्तन की सूचना न होने के कारण उपर्युक्त मदों की गलत सुपुर्दगी के लिए बैंक किसी भी हानि, क्षति या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। खाताधारक द्वारा जारी परिवर्ी / चेकों में भुगतान और बैंक के साथ सभी पत्राचार में खाता संख्या को उद्धृत किया जाना है। चेक (नॉन-क्लीयरिंग इंस्ट्रुमेंट्स) पर संशोधन, यदि कोई हो, तो ऐसे प्रत्येक संशोधन को आहरणकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। चेक टूटनेशन सिस्टम (सीटीएस) लिखतों में कोई संशोधन पाए जाने पर उन्हें बिना भुगतान के वापस कर दिया जाएगा। मूल-शाखा में प्रस्तुत किए गए नॉन-क्लीयरिंग चेकों के मामले में, बैंक/शाखा को उन चेकों के भुगतान से मना करने का अधिकार है जिनमें कोई संशोधन किया गया है और आहरणकर्ता ने संशोधन को बैंक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर दिए गए नमूने के अनुसार पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित नहीं किया हो। चेक इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए कि जारी होने के बाद उनमें संशोधन नहीं किया जा सके और आहरणकर्ता के हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड पर मौजूद हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। खातों में ओवरड्राइंग की अनुमति नहीं है। बैंक को गलती से जमा की गई किसी भी राशि की वसूली के लिए खातों को डेबिट करने का अधिकार है। बाहरी लिखतों के संग्रह में संग्रह शुल्क लगता है। चेकलिखतों के संग्रहण के लिए कोई विवाद है तो बैंक की चेक संग्रहण नीति के अनुसार निपटारा जाएगा। बैंक को गलती से जमा की गई या चलाए गए खाते का भुगतान करने के लिए खाते में कोई धन उपलब्ध नहीं है, तो मैं उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को किसी भी उपलब्ध क्रेडिट को सेट करने के लिए अधिकृत करता हूं, जिसमें संग्रह प्राप्तियां या किसी भी जमा से खाते में प्रवाहित राशि शामिल हैं। निष्क्रिय खाता: 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए खाते में मेरे द्वारा प्रेरित कोई भी लेनदेन नहीं किए जाने पर उसे निष्क्रिय खाते के रूप में माना जाता है। खाता फ्रीज: मैं बैंक को जहां अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है उस स्थिति को छोड़कर, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने खाते को फ्रीज करने के लिए अधिकृत करता हूं, a) जब एक अवयस्क, जो खाते का धारक है, वयस्कता प्राप्त करता है b) यदि बैंक को यह संदेह है कि मेरे खाते में लेनदेन मेरे द्वारा शुरू नहीं किए गए हैं (बैंक पहले से निर्धारित हो चुके लेनदेन के लिए कोई दिखने नहीं लेगा) c) यदि यह संदेह है कि मेरे खाते का दुरुपयोग मनी म्यूचल रूप में या अनधिकृत मनी प्लिंग के लिए एक चैनल के रूप में या किसी भी अवैध गतिविधि के लिए एक वाहक के रूप में हो रहा है (मुझे इस मामले में नोटिस नहीं मिलेगा।) d) बैंक को खाते को फ्रीज करने के लिए वैधानिक अनुरोध प्राप्त होतें हैं। e) यदि बैंक को समय-समय पर संशोधित केवाईडी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का पता चलता है। खाता बंद करना: मैं बैंक को मुझे पूर्व सूचना देकर अपने खाते को बंद करने के लिए अधिकृत करता हूं, यदि A) खाते में शेष राशि 3 महीने या उससे अधिक समय तक शून्य रहती है या मेरे खाते से अस्वीकृत भुगतान की अधिक उच्च घटनाएं होती हैं। b) पूर्व सूचना के साथ बैंक द्वारा तय की गई कोई अन्य घटना। इसके अलावा मैं समझता हूं कि बैंक सभी वैधानिक नोटिसों का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जिसमें मुझे नोटिस देकर या बिना नोटिस दिए मेरे खाते को बंद करना शामिल है। खाता रूपांतरण (वैतन बचत खाता धारक के लिए लागू): यदि मेरे वैतन खाते में 3 महीने की अवधि तक वैतन जमा नहीं किया जाता है, तो खाता स्वचालित रूप से बिना किसी नोटिस या सूचना (सिवा लागू शुल्कों और प्रभारों के साथ) के सामान्य बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगा और पूर्ण केवाईडी लागू होगा, ऐसा नहीं करने पर खाते पर क्रेडिट फ्रीज लगा दिया जाएगा। लेन-देन: वित्तीय/गैर-वित्तीय प्रकृति (जैसे: चेक बुक/काई जारी करना, वित्तीय लेनदेन, वित्तीय गतिविधियों का अपडेशन आदि) के खाते के संबंध में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को कोई भी निर्देश मेरे द्वारा केवल अधिकृत चैनलों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जो उस समय प्रचलित नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उन अनुरोधों पर कार्रवाई करे जो प्राधिकृत चैनलों के माध्यम से नहीं आते हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने विवेकाधिकार पर कार्य करने का अधिकार है। चैनल सुविधाएं: उत्कर्ष लघु वित्त बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी चैनल सुविधाएं जिनमें डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग आदि शामिल हैं। ये विशिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो www.utkarsh.bank पर प्रदान किए गए हैं और मुझे सौंप दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार हैं। मैं सहमत हूं और वचन देता हूं कि मैं अपने खाते की किसी भी संवेदनशील जानकारी को विशेष रूप से इंटरनेट / ईमेल / फोन माध्यम से कभी भी साझा नहीं करूंगा और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक इस तरह के प्रकटीकरण से उत्पन्न धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मैं अपने खाते से जुड़े चेक ली, डेबिट कार्ड खो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करने का वचन भी देता हूं। डेबिट कार्ड: डेबिट कार्ड का उपयोग विनियम विनियमन के अनुसार होगा और किसी भी विफलता की स्थिति में, कोई धारक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित संरक्षणों के तहत सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। उत्कर्ष लघु वित्त बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए अस्वीकरण: "मैं / हम स्वीकार करते हैं कि उत्कर्ष लघु वित्त बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग समय-समय पर किया जाएगा, जो कि उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड अपने ग्राहकों से ई- मेल सहित किसी भी रूप में लॉगिन आईडी/पासवर्ड से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगता है। मैं/हम आगे सहमत हूं और पुष्टि करते हैं कि उत्कर्ष लघु वित्त बैंक किसी को मेरे द्वारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कार्ड, कार्ड संख्या या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का साझाकरण/प्रकटीकरण से किए जाने से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न कि किसी अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक पर दावा करेगा। हम अपने खाते के विवरण की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतेंगे ताकि किसी भी अनधिकृत उपयोग से बचा जा सके। अप्रत्याशित घटना: इसमें निहित बैंक के दायित्व ऐसी किसी भी घटना के अधीन होंगे, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को अपने दायित्वों को पूरा करने में रोकथाम या देरी या रुकावट होगी, यदि ऐसी रोकथाम, देरी या रुकावट किसी अप्रत्याशित घटना के कारण होती है, जिसमें बैंक के उचित नियंत्रण से परे कोई भी घटना शामिल होगी, जैसे कि किसी भी संघर्ष प्रणाली की अनुपलब्धता, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, दैवीय आपदा, नारिकर हंगामा, हड़ताल या किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, विद्रोह, युद्ध या सरकारी कार्रवाईएं, कानून में परिवर्तन और नियामक प्रकृति के अन्य संबद्ध कार्य। तो जब तक कि ऐसा कोई कारण या उसका प्रभाव बना रहता है (बशर्ते कि यह किसी भी बकाया राशि पर व्याज के उपार्जन को रोक नहीं पाएगा जो इस प्रावधान के बाद भी होगा) या सरकार उसके बाद एक उचित अवधि के दौरान जिसमें ऐसे किसी भी दायित्व को पूरा करने में वह सक्षम नहीं है, तब तक बैंक को चुकता नहीं माना जाएगा। यहां बताए गए कारणों से दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता के कारण किसी भी पक्ष से उत्पन्न किसी भी कार्रवाई या दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा

उत्कर्ष लघु वित्त बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता का डीआईसीजीसी द्वारा अधिकतम ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का बीमा किया जाता है, जो बैंक के परिसमापन या बैंक का लाइसेंस रद्द करने की तारीख या बैंक के समाप्तेन/ विलय/ पुनर्निर्माण की योजना लागू होने की तारीख को उसके द्वारा धारित मूलधन और व्याज राशि दोनों के लिए अधिकार और क्षमता के समान होता है।

अटी व शर्ती (ग्राहकाची प्रत)

मी (या संदर्भित, "मी", "माझे" आणि "मला" म्हणजे सर्व खातेधारक) खालील अटी व शर्ती वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत आणि मला कळले आहे की अटी व शर्ती यांच्यात झालेले कोणतेही बदल www.utkarsh.bank या वेबसाइटवरच फक्त पाहायला मिळतील. खाते उघडणे / सेवा तरतुद : सर्व सेवा, ज्यात खाते उघडणे सामील आहे, आम्ही प्रदान केलेल्या माहिती / कान्यदवांच्या घटनाळणीच्या अधीन आहेत. जर हे खाते उघडले नाही तर प्रारंभिक निधीची रक्कम मला फक्त डी.डी च्या स्वरुपात परत करण्यात येईल. सेवा : उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा दैवी आपत्तिका अधीन असतील. मला उपलब्ध असलेल्या सर्व गोष्टी संपूर्ण अटी आणि www.utkarsh.bank येथे उपलब्ध असेल. पासबुक : खातेधारकाला पासबुक उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र बँकेकडे असते. चेकबुक: बँकेच्या सामाधानकारक कामकाजासाठी तृतीय पक्षांना देण्यात आलेले धनादेश वटवित्या यावेत म्हणून पुरेशी शिल्लक ठेवली गेली पाहिजे. याउपट जास्त प्रमाणात घटना (म्हणजे निधीअभावी 3 पक्षा जास्त धनादेश परतता) घडल्यास, ग्राहकाला सूचनात खाते बंद करण्याचा अधिकार बँकेने राखून ठेवलेला आहे. काही विशेष सूचना, आर्थिक आणि गैर-आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारच्या, जसे की स्थायी सूचना, दैयक थांबविल्याच्या सूचना, चेकबुक जारी करणे इत्यादी लेखी स्वरुपात कळविल्या पाहिजेत. नाहीतर, अशा सूचनांचे पालन करणे बँकेवर बंधनकारक राहणार नाही. मला समजले आहे की जर मी/आम्ही माझे/आमचे बचत खाते व्यावसायिक व्यवहारांसाठी वापरले तर बँक अशा खाल्यांमधील कायदाकार एकातरी पदवृत्तीत वित्तीय अधिकार राखून ठेवते. बँकेला /शाखेला दिलेल्या पत्त्यावर वेळोवेळी सूचना/ पत्रव्यवहार पाठविणार आहे. त्यामुळे अर्जदाराचे वेळ वाच न घालविता मेलिंग पत्र बदलल्यास तत्काळ कठिबंधन बंधनकारक आहे. मेलिंग पत्रात बदल झाल्याची माहिती न दिल्याने वरील वस्तूंच्या चुकीच्या वितरणासाठी कोणत्याही नुकनसासाठी, हानीसाठी किंवा परिणामासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही. खातेधारकाने जारी केलेल्या रस्तप/ धनार्देशांमध्ये अधिक बँकेशी झालेल्या सर्व पत्रव्यवहारात खाते क्रमांक लिहिला पाहिजे. धनादेशावरील (नॉन-क्लिरअरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स वरील), बदल, जर काही असतील, तर अशा प्रत्येक केलेल्या बदलच्या बाबुला काढणाऱ्या व्यक्तीने (ड्रॉवरने) स्वाक्षरी करून ते प्रमाणित केले पाहिजेत. चेक टूटनेशन सिस्टीम (सी.टी.एस) इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये बदल झाल्यास न वटता ते परत केले जातील. मूळ-शाखेत सादर केलेल्या नॉन-क्लिरअरिंग चेक्ससाठी बँक / शाखा बँकेकडे असलेल्या नोंदीनुसार पूर्ण स्वाक्षरीने काढणाऱ्या व्यक्तीने (ड्रॉवरने) बदल प्रमाणित केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारे बदल केलेल्या धनादेशांचा भरणा देण्यास नकार देण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे. धनादेश जारी केलेल्यानंतर बदल होऊ नयेत अशा पद्धतीने धनादेश काढले जावेत आणि काढणाऱ्या व्यक्तीची (ड्रॉवरची) स्वाक्षरी रेकॉर्डवरील जावतील. धनादेशी इन्स्ट्रुमेंट्स गोळा आकारले जात. धनादेशी इन्स्ट्रुमेंट्स गोळा करतांना काही वाद असल्यास, ते बँकेच्या धनादेश संकलन धोरणानुसार हाताळले जातील. एखाद्या ग्राहकाला एका शाखेतील आपले क्रीयाशील (ऑपरेटिव्ह) खाते दुसऱ्या शाखेत स्थानांतरित करायचे असेल तर त्याने/तिने स्वतःची विनंती लेखी स्वरुपात दयावी. स्थानिक क्लिरअरिंग हाऊसच्या वेळेनुसार लागेल तसे दिवसाच्या पुरेशा लवकर वेळी वटवित्यासाठी धनादेश प्रस्तुत करता येईल. फक्त शुष्क शिल्लक असेल तर चेक क्लिरअरिंसाठी काढण्याची साधारणपणे परवानगी दिली जाईल आणि हे क्लिरअरिंग हाऊसच्या निमाप्रमाणाने केले जाईल. कृपया चेकबुक मध्ये कोरे स्वाक्षरी करून ठेवत जाऊ नका. चेकबुक चावी लाऊन लॉक मध्ये ठेवत जा. ₹.15000/- पध्दते बाह्य/स्थानिक धनादेश तालाक मला करण्याची परवानगी सामाधानकारकरित्या चालविल्याच्या व्यक्तीतून बँक खातेधारकांना देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी, आपल्या शाखेशी संपर्क साधावा. फी आणि शुल्क: संपात महत्त्वाच्या अटी व शर्ती येथे / शुल्कांच्या अनुसूचीत आणि www.utkarsh.bank या वेबसाइटवर वर्णन केल्याप्रमाणे माझ्या खाल्यावर आणि मी घेतलेल्या इतर सेवांसाठी फी आणि शुल्क लागू होईल. सेवा कर आणि वेळोवेळी लागू होणारे इतर वैधानिक कर सर्व फी वर आकारण्यात येतील. व्याजाचे दर देण्याचे : उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक फक्त आपल्या बचत खात्यात (चासू खात्यात नाही) दैनंदिन शिल्लक तत्वावर योजना कोसासाठी लागू असलेल्या दारुनासुर वैमासिक व्याज देते. मी समजतो की बँकेला ₹.1.00 लाखांपेक्षा जास्त रक्कमसाठी मिन्न व्याज दर देण्याची परवानगी नही, फी आणि शुल्क, सेवा आणि व्याज दरवातील बदल: फी आणि शुल्क, सेवा किंवा व्याज दरवातील कोणतेही बदल / बंद करणे मला किमान 30 दिवस अगोदर पत्र / एस.एम.एस / वेबसाइट / ईमेल किंवा इतर माध्यमांद्वारे सूचित केले जातील. वसुली : फी/शुल्क भरण्यासाठी खाल्यात निधी उपलब्ध नसल्यास मी उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेला संकलनातून किंवा कोणत्याही ठेवीतून खाल्यात जमा होणाऱ्या रक्कमसह कोणतेही उपलब्ध क्रेडिट सेट ऑफ करण्याचा अधिकार देतो. अप्रवर्ती (इनऑपरेटिव्ह) खाते : 2 वर्षांच्या किंवा त्याहून अधिक कालावधीत खाल्यात माझ्याकडून कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत तर ते खाते अप्रवर्ती (इनऑपरेटिव्ह) म्हणून मानले जाते. खाते फ्रीज करणे : मी खालील परिस्थितीत मला कळवून, अन्यथा उल्लेख केल्याशिवाय, माझे खाते फ्रीज करण्याचा अधिकार बँकेला देत आहे. (ए) खाते धारक असलेली अल्पवयीन व्यक्ती सजान होत तेव्हा बी) माझ्या खाल्यातील व्यवहार माझ्याकडून सुरू झाले नाहीत असा बँकेला संशय असल्यास (बँक आधीच केलेल्या व्यवहारांची कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही) सी) पैसे खर्चच (म्यून) म्हणून किंवा अनधिकृत मनी प्लिंगिंसाठी किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कामासाठी माध्यम म्हणून माझ्या खाल्याचा गैरवापर केला जात असल्याचा संशय असल्यास (या प्रकणानत मला नोटिट मिळणार नाही) डी) बँकेला खाते फ्रीज करण्याची वैधानिक निर्णति प्राप्त होते. इ) बँकेने वेळोवेळी सुधारित केलेल्या के.वाय.सी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न केल्याचे आढळल्यास. खाते बंद करणे: मी बँकेला, अशा परिस्थितीत मला पूर्वसूचना देऊन माझे खाते बंद करण्याचा अधिकार देत आहे- ए) खाल्यातील शिल्लक 3 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ शून्य राहिल्यास माझ्या खाल्यातून अनादर केलेल्या दैयकांचे प्रमाण जास्त आहे. बी) बँकेने पूर्व सूचना देऊन ठरविल्याप्रमाणे इतर कोणतीही घटना. शिवाय मला समजले आहे की मला नोटिस देऊन/ न देता माझे/आमचे खाते बंद करण्यासह सर्व वैधानिक सूचनांचे पालन करण्यास बँक बांधील आहे. खाते रूपांतरण (वैतन बचत खातेधारकासाठी लागू): जर माझ्या वैतन खात्यात 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी वैतन जमा झाले नाही तर खाते कोणत्याही नोटिस किंवा सूचना न देता (सर्व लागू शुल्क आणि फी सह) आपोआप सामान्य बचत खात्यात रूपांतरित होईल आणि पूर्ण के.वाय.सी लागू होईल, असे न केल्यास खाल्यावर क्रेडिट फ्रीज ठेवण्यात येईल. व्यवहार : उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेला आर्थिक/गैर आर्थिक स्वरुपाच्या (उदाहरणार्थ चेकबुक/काई जारी करणे, आर्थिक व्यवहार, वैयक्तिक माहिती अदस्ययावत करणे इत्यादी) कोणत्याही सूचना मी बँकेने त्या वेळी प्रचलित असलेल्या नियामक मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे निर्दिष्ट केलेल्या अधिकृत माध्यमांतूनच देईन. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेने अधिकृत माध्यमांद्वारे न येणाऱ्या सूचनांवर कार्यवाही करणे अपेक्षित नाही. परंतु असामान्य परिस्थितीत अशा सुविधा प्रदान करण्यासाठी आपल्या स्वच्छाणिनियानुसार कार्य करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. माध्यमांच्या सुविधा : उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेकडून डेबिट कार्ड, ए.टी.एम, इंटरनेट बँकिंग यासह सर्व माध्यमांच्या सुविधा www.utkarsh.bank पर प्रदान केलेल्या आणि मला सुपुर्द केलेल्या अटी व शर्तीसारखे विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन आहेत. मी / आम्ही सहमत आहोत आणि अशी जबाबदारी स्वीकारतो की मी / आम्ही कधीही माझ्या / आमच्या खाल्याची कोणतीही संवेदनशील माहिती विशेषतः इंटरनेट / ईमेल / फोन माध्यमाद्वारे कधीही सांगणार नाही आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक असे जाहीर केल्याने उद्धवगण्या फसणुकीस जबाबदार नाही. तसेच माझ्या खाल्याशी जोडलेल्या धनादेशाची पत्रा, डेबिट कार्ड हरवल्यास बँकेला तत्काळ कळविल्याची जबाबदारी स्वीकारत आहे. डेबिट कार्ड : डेबिट कार्डचा वापर विनियम नियंत्रण (एक्सचेंज कंट्रोल रेग्युलेशन) अनुसार असेल आणि कोणतेही अपयश आल्यास काडधारकावर परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 आणि भारतीय रिझर्व बँकेने त्यात केलेल्या ठराविक सुधारणांनुसार कारवाई केली जाईल. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक इंटरनेट बँकिंगचा बँक इंटरनेट बँकिंगचा बँक इंटरनेट बँकिंग सुविधा जारी करणे, तिचा वापर www.utkarsh.bank पर नमूद केल्याप्रमाणे वेळोवेळी लागू असलेल्या अटी आणि शर्तीद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि त्याचे पालन करण्यास सहमत आहे/आहोत. मला/आम्हाला माहित आहे की उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड आपल्या ग्राहकांकडून ई-मेलसह कोणत्याही संबंधित कोणतीही माहिती मागत नाही. मी / आम्ही सहमत आहे/आहोत आणि पट्टी करतो की उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लॉगिन आय.डी, पासवर्ड, कार्ड, कार्ड क्रमांक किंवा पिन (वैयक्तिक ओळख क्रमांक) कोणत्याही सांगितल्यामुळे / उघड केल्यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही नुकनानास जबाबदार राहणार नाही किंवा कोणत्याही अनधिकृत वापरासाठी बँकेवर दावा करणार नाही. कोणताही अनधिकृत वापर पाडण्यासाठी मी / आम्ही माझ्या / आमच्या खाल्याच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व खबरदारी घेईन / घेऊ. दैवी आपत्ति: येथे समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जबाबदारा अशा कोणत्याही घटनेच्या अधीन असतील ज्यामुळे त्याच्या जबाबदारा पात्र पाडण्यास प्रतिबंध किंवा विलंब किंवा व्यत्यय येईल, नागरी गोंधळ, कोणत्याही प्रकारचे संप किंवा औद्योगिक कार्याव्दे, दंगली, बंड, युद्ध किंवा सरकारची कृत्ये, विधिविधानातील बदल आणि नियामक न्यायशास्त्राची इतर संबंधित कृत्ये यांचा समावेश असेल। मग जेव्हा असे कोणतेही कारण किंवा त्याचा परिणाम कायम आहे तोपर्यंत (ज्यामुळे देव असलेल्या कोणत्याही थंकिर रक्कम वरील व्याज मिळण्यास अडथळा येणार नाही परंतु या तरतुदीसाठी, असे झाल्यास) आणि त्यानंतर योग्य कालावधीत ज्यात अशा कोणत्याही जबाबदारी पूर्ण करण्यास सक्षम नसेल, बँक मसूर करत आहे असे मानले जाणार नाही. येथे नमूद केलेल्या कारणांमुळे जबाबदारा पात्र पाडण्यास असमर्थ ठरल्याने कोणत्याही कृतीसाठी किंवा कोणत्याही पक्षाच्या दाव्यासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही.

उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेतील प्रत्येक उर्जदारासाठी (आ.सी.सी.जी.सी कडून जावयातून) "5,00,000 (सपेय पाच लाख) पर्यंत पतित दिना जातो जे बँकेचे परिसमापन / तिचा परवाना रद्द होण्याच्या तारखेस किंवा एकात्रीकरण / विलीनीकरण / पुनर्रचना यांची योजना अंमलात येण्याच्या तारखेस त्याच्याकडे/तिच्याकडे असलेल्या मुदतल आणि व्याजाच्या रक्कमसाठी समान अधिकारात आणि समान क्षमतेने असेल.

For Bank use only																								
CRM ID															Documents Submitted									
															☐ Field Verification initiated ☐ PGK issued for existing customer ☐ ID proof ☐ Add Proof ☐ Photo ☐ No cheque book to be issued									
Delivery Channel					Marketing Channel*					Lead Generator Code					Lead Converter Code*									
Value Date					Fund Parked A/C No.										UDN									
Branch Name										Date*										Our Employee / Staff Number*				
Politically Exposed Person (PEP)										CIF Id														
☐ Yes ☐ No																								
Account Type										A/C No.														
☐ Savings ☐ Salary ☐ Current ☐ Fixed Deposit ☐ Recurring Deposit																								
Customer signed in my presence: Emp. Name										Emp. Code					Signature									
Tele Confirmation Done: Emp. Name										Emp. Code					Signature									
DECLARATION BY THE BRANCH I hereby certify that this account opening form is complete in all respects and relevant documents have been obtained as per the KYC Guidelines of the Bank and RBI (as amended from time to time) and performed due diligence to verify the genuineness of the customer. The account may please be set up in CBS.																								
For Utarkash Small Finance Bank Limited Branch Head/Authorized Signatory _____ Signature with Stamp Name of Official: _____ Designation: _____ EIN: _____ Signature _____																								

केवल बैंक उपयोग के लिए																			
सीआरएम आईडी										दस्तावेज जमा किए गए					☐ फील्ड सत्यापन शुरू किया गया ☐ मौजूदा ग्राहक के लिए पीजीके जारी किया गया				
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐										☐ पहचान का प्रमाण ☐ प्रमाण जोड़ें ☐ फोटो					☐ चेक बुक जारी नहीं की जाएगी				
डिलीवरी चैनल					मार्केटिंग चैनल*					लीड जनरेटर कोड					लीड कनवर्टर कोड*				
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				
मूल्यन दिनांक					फंड पार्क करने के लिए खाता संख्या					यूडीएन									
D D M M Y Y					D D M M Y Y Y Y														
शाखा का नाम										दिनांक*					हमारी कर्मचारी / स्टाफ संख्या*				
										D D M M Y Y Y Y									
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी)										सीआईएफ आईडी									
☐ हाँ ☐ नहीं										☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐									
खाता प्रकार										खाता संख्या									
☐ बचत ☐ वेतन ☐ चालू ☐ सावधि जमा ☐ आवर्ती जमा										☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐									
ग्राहक में मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया: कर्मचारी नाम										कर्मचारी कोड					हस्ताक्षर				
										D D M M Y Y Y Y									
टेली पुष्टिकरण किया गया: कर्मचारी नाम										कर्मचारी कोड					हस्ताक्षर				
										D D M M Y Y Y Y									
शाखा द्वारा घोषणा मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह खाता खोलने का फार्म सभी प्रकार से पूर्ण है और संबंधित दस्तावेज बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार प्राप्त किए गए हैं और ग्राहक की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए उचित परिश्रम किया गया है। कृपया सीबीएस में खाता बनाया जाए।																			

[illegible]

ACKNOWLEDGMENT SLIP

Reference Number:

Please quote this reference no. for any future communication

Dated

Nomination taken

☐

Yes

☐

No

Bank official name

Bank Official EIN

Signature of Bank official along with Branch Stamp

पावती पर्ची

संदर्भ संख्या:

कृपया भविष्य के किसी भी संचार के लिए इस संदर्भ संख्या को उद्धृत करें

दिनांकित

नामांकन लिया गया

☐

हाँ

☐

नहीं

बैंक का आधिकारिक नाम

बैंक अधिकारी का ईआईएन

शाखा की मुहर के साथ बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

पावती स्लिप

संदर्भ क्रमांक :

भविष्यातील कोणत्याही संवादासाठी कृपया हा संदर्भ क्रमांक लिहावा

दिनांक रोजी

नामांकन घेतले आहे

☐

होय

☐

नाही

बँकेच्या अधिकाऱ्याचे नाव

बँक अधिकाऱ्याचा इ.आय.एन

शाखेच्या स्टॅम्पसह बँक अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी